

**नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।**

अवधि 04/2019 से 03/2022 तक

भाग – एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-378/81-फिन(एल०ए०) खण्ड-IV, दिनांक 18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अवधि 04/2019 से 03/2022 तक नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी निम्नानुसार थे:-

(1) प्रधान :-

क्र. सं.	विवरण	अवधि
1	श्री ठाकुर दास	01.04/2019 से 17.1.2021
2	श्री मति निशा शर्मा	18.01.2021 से 31.03.2022

(2) कार्यकारी अधिकारी :-

क्र. सं.	विवरण	अवधि
1	श्री सुधीर शर्मा	01.04/2019 से 30.06.2020
2	श्री ललित कुमार	01.07.2020 से 31.03.2022

(ख) नगर परिषद परवाणु जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2019 से 03/2022 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं.	राशि लाखों में (₹)
1	अनुदानों की शेष राशि का उपयोग न करना	6.1	150.95
2	अनुदानों से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना	6.2	568.83
3	स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में विभिन्न व्यय शीर्षकों के अंतर्गत अधिक व्यय	10.2	181.55
4	गृह कर/सम्पति कर के निर्धारण हेतु Jaago Foundation को अनियमित भुगतान करना	10.3 (ख)	8.86
5	गृह कर/सम्पति कर के मूल्यांकन/निर्धारण सम्बन्धी त्रुटियों के कारण आय के रूप में संभावित हानि	10.3 (ग) से 10.3 (ङ) तक	233.09
6	दिनांक 31.03.2022 तक सफाई कर, व्यापार कर वसूली हेतु शेष	10.4	22.48
7	दिनांक 31.03.2022 तक दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष	10.5	1.48
8	सहायक आयुक्त कार्यालय से किराया वसूली हेतु शेष	10.6	37.11
9	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	10.12	7.59
10	पार्किंग नीलामी /आबंटन न करने के फलस्वरूप संभावित वित्तीय हानि	10.13	14.40
11	पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से नगर पालिका निधि को अनियमित स्थानान्तरण किये जाने बारे	11.3	25.00
12	कर्मचारी/अधिकारी को वेतन के रूप में अधिक भुगतान	12.1 व 12.2	5.01
13	अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Excavation in foundation trenches etc in earth work" की तुलना में अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के लिए चौड़ाई की प्रमात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	15.2 (क)	0.14
14	Approved Drawing की तुलना में माप पुस्तिका में कार्य की	15.3 (क)	0.25

	अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण अधिक भुगतान		
15	संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 5 i.e Stone filling behind the Retaining wall के संदर्भ में अनियमित भुगतान	15.5 (क)	0.09
16	गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 4 i.e. "P/L CC 1:2:4" के लिए संविदाकार को अधिक भुगतान	15.9 (क)	0.31
18	Detail Estimate, व Rate of analysis तैयार किये बिना संविदाकार को अनियमित भुगतान	15.26 (क)	27.89
19	संविदाकार को GST के रूप में अनियमित अधिक भुगतान	15.26 (ख)	5.01
20	निर्माण कार्य भुगतान बिलों से प्रतिभूति की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकारों को अनुचित लाभ दिये जाने बारे	18	1.98
21	बिना अनुदान/आय प्राप्ति के निर्माण कार्यों का आबंटन/निष्पादन करने पश्चात् निर्माण कार्यों बिलों के भुगतान सम्बन्धी नगर परिषद निधि पर लंबित वास्तविक देनदारियां	19	151.67
22	बिना अनुदान/आय प्राप्ति के निर्माण कार्यों का आबंटन करने पश्चात् नगर परिषद् निधि पर निर्माण कार्यों बिलों के भुगतान सम्बन्धी सम्भावित लंबित देनदारियां	20	71.88
23	सफाई ठेके/ सीवरेज लाइन्स शिकायत निवारण ठेके/ शौचालय रख-रखाव ठेके/Clearing of Jungle कार्य ठेकों हेतु अनियमित/अनावश्यक व्यय	21 से 24	62.26
24	नगर परिषद निधि से अनियमित व्यय	26	15.62
25	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	28	69.56
26	स्टॉक/स्टोर के संभावित दुरुपयोग बारे	30	0.49

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के (परिशिष्ट "1") पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही है, जोकि अत्यंत चिंताजनक है। अतः नगर परिषद प्रशासन इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु

विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरो का निस्तारण संभव हो सके।

भाग -द्वितीय

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

अवधि 04/2019 से 03/2022 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, दिनांक 28.03.2022 से 10.08.2022 तक श्री रविंदर सिंह उप निदेशक व श्री विक्की कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए मास 05/2019, 12/2020 और 03/2022 एवं व्यय की विस्तृत जाँच के लिए मास 08/2019, 06/2020 और 11/2021 का चयन किया गया।

“वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणू, जिला सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। हि°प्र° राज्य लेखा परीक्षा विभाग, नगर परिषद परवाणू द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।”

3. अंकेक्षण शुल्क :-

अवधि 04/2019 से 03/2022 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹127200/- आँका गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणू, जिला सोलन को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हि°प्र° राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 के नाम प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-140/22 दिनांक -10.08.2022 द्वारा अनुरोध किया गया था।

4. वित्तीय स्थिति :-

अवधि 04/2019 से 03/2022 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न दिया गया है जबकि विस्तृत विवरण और बैंक समाधान विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर संलग्न किया गया।

FINANCIAL POSITION of Municipal Council Parwanoo, Distt. Solan (H.P.)

YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE (₹)	RECEIPT DURING THE YEAR (₹)	Interest Received (Saving) (₹)	TOTAL (₹)	Expenditure (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
2018-19	Own Sources	8617687.49	39654635.00	572848.60	48845171.09	47559357.00	1285814.09
	Grant In Aid	1724576.00	56430130.00	0.00	58154706.00	48421559.00	9733147.00
	Total	10342263.49	96084765.00	572848.60	106999877.09	95980916.00	11018961.09
2019-20	Own Sources	1285814.09	44809656.65	268299.00	46363769.74	45716305.73	647464.01
	Grant In Aid	9733147.00	31139591.00	0.00	40872738.00	33129384.00	7743354.00
	Total	11018961.09	75949247.65	268299.00	87236507.74	78845689.73	8390818.01
2020-21	Own Sources	647464.01	42573796.00	786926.66	44008186.67	42941328.83	1066857.84
	Grant In Aid	7743354.00	65638306.00	0.00	73381660.00	59199749.00	14181911.00
	Total	8390818.01	108212102.00	786926.66	117389846.67	102141077.83	15248768.84
2021-22	Own Sources	1066857.84	51841981.00	676753.00	53585591.84	51277326.02	2308265.82
	Grant In Aid	14181911.00	51050521.00	0.00	65232432.00	50137483.00	15094949.00
	Total	15248768.84	102892502.00	676753.00	118818023.84	101414809.02	17403214.82
Total as per General Cash Book as on 31.03.2022							₹ 17403214.82
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2022 (Detail Given Below)							₹17403214.82
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2022							0.00
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2022							
Particulars							Amount (₹)
JCCB Bank Account 101534029000065							1313463.06
SBI Bank Account 55090327169							426279.25
SBI Bank Account 55090327147							848345.03

SBI Bank Account 30102209380	27583.00
Bank of Baroda 12800100011172	341849.15
HDFC Bank Account 21031450000044	408453.68
ICICI Bank Account 373601000091	358188.00
The Baghat Urban Co Bank 10700710363	33057.00
PNB Bank Account 2912000100143856	56930.15
UCO Bank Account 9870110047309	265741.20
Axix Bank 918010052382148	26885.30
Canera Bank Account 3237101000093	342171.00
ICICI Bank Account 373601000382	12954269.00
Total	₹17403214.82

5. सावधि निवेश:-

अंकेक्षण अवधि 04/2019 से 03/2022 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया है। इस संदर्भ में संबन्धित प्रमाण पत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-“ख”** पर संलग्न किया गया है।

6. अनुदान:-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् परवाणु, जिला सोलन द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अनुदानों से प्राप्तियों व व्यय का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट “ग”** पर संलग्न किया गया है। अनुदानों से प्राप्तियों व व्यय विवरण की जाँच करने के उपरान्त इसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं ।

6.1 दिनांक 31.03.2022 तक अनुदानों की शेष ₹150.95 लाख का उपयोग न करना :-

परिशिष्ट- “ग” में वर्णित किए गए विभिन्न अनुदानों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अनुदानों की ₹15094949/- की राशि दिनांक 31.03.2022 को उपयोग करने हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.03.2022 तक अनुदानों ₹15094949/- की राशि को उपयोग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन अनुदान राशियों को स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार या तो उपयोग किया जाए अन्यथा जिस स्त्रोत से प्राप्त हुई थी, उन्हें वापिस लौटाया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

6.2 अनुदानों से संबन्धित ₹568.83 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना :-

(परिशिष्ट "ग") में वर्णित GIA से संबन्धित विवरण की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुदानों से क्रमशः ₹33129384.00, ₹59199749.00 और ₹50137483.00 व्यय किए गए थे तथा जिस में से केवल ₹85583839.00 के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए जबकि निम्नविवरणानुसार व **परिशिष्ट-"घ"** में वर्णित विवरण अनुसार शेष व्यय ₹56882777.00 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

व्यय किए गए अनुदानों की राशि से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाये जाने का विवरण :-

वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय की गई राशि	₹33129384.00
वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय की गई राशि	₹59199749.00
वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय की गई राशि	₹50137483.00
कुल व्यय	₹142466616.00
व्यय की गई राशि जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किए गए	₹85583839.00
GIA की व्यय की गई राशि जिसके संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किए गए	₹56882777.00

7. कामकाजी महिला छात्रावास (Working Women Hostel) की वित्तीय स्थिति :-

अवधि 04/2019 से 03/2022 के कामकाजी महिला छात्रावास (Working Woman Hostel) जोकि नगर परिषद द्वारा संचालित है, के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न दिया गया है जबकि विस्तृत विवरण और बैंक समाधान विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ड"** पर संलग्न किया गया ।

Financial Position of Working Women Hostel of MC Parwanoo					
YEAR	OPENING	RECEIPT DURING THE	TOTAL (₹)	TOTAL	CLOSING

	BALANCE (₹)	YEAR (₹)		PAYMENTS (₹)	BALANCE (₹)
2019-20	1070029.00	236923.00	1306952.00	116870.00	1190082.00
2020-21	1190082.00	419684.00	1609766.00	114143.00	1495623.00
2021-22	1495623.00	140892.00	1636515.00	140892.00	1495623.00
Closing Balance as per Cash Book/ Financial Position as on 31.03.2022					₹1495623.00
Closing Balance as per Bank Accounts as on 31.03.2022 (Detail Given Below)					₹1495623.00
Difference between Closing Balance of Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2021					Nil
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2022					
Particulars					Amount (₹)
Balance of Account No. 12800100011583 of JCC Bank Of Baroda					₹1495623.00
Total					₹1495623.00

8. आनंद पार्क (Anand Park) की वित्तीय स्थिति :-

अवधि 04/2019 से 03/2022 के आनंद पार्क (Anand Park) जोकि नगर परिषद द्वारा संचालित है, के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न दिया गया है जबकि विस्तृत विवरण और बैंक समाधान विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ड" पर संलग्न किया गया ।

Financial Position of Anan Park of MC Parwanoo					
YEAR	OPENING BALANCE (₹)	RECEIPT DURING THE YEAR (₹)	TOTAL (₹)	TOTAL PAYMENTS (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
2019-20	657573	470918	1128491	680734	447757
2020-21	447757	475000	922757	373852	548905
2021-22	548905	495232	1044137	369054	675083
Closing Balance as per Cash Book/ Financial Position as on 31.03.2022					₹675083.00
Closing Balance as per Bank Accounts as on 31.03.2022 (Detail Given Below)					₹675083.00
Difference between Closing Balance of Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2021					Nil
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2022					
Particulars					Amount (₹)
Balance of Account No. 917010039378394 of AXIS Bank Ltd.					₹675083.00
Total					₹675083.00

9. दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD –H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD –H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 Dt. 07.09.2009, और पत्र सं. UD –H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) से रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गुआ कि नगर परिषद् परवाणु द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गंभीर अनियमितता है। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखापद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाया जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर परिषद् के द्वारा Ledger Account, Trial Balance और Balance Sheet भी नहीं बनाई गई थी, जिस कारण नगर परिषद के लेखों का सत्यापन (Verification) नहीं किया जा सका जबकि उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन (Verification) अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

10. आय:-

10.1 स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) की कम प्राप्ति :-

अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक आय कम प्राप्त की गई थी जो कि एक अत्यन्त गंभीर वित्तीय अनियमितता है, स्वीकृत बजट प्रावधान अनुसार ही आय एकत्रित की जानी चाहिए थी। बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त कम आय का विवरण निम्न दिया गया है। अतः स्वीकृत बजट प्रावधानों

की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) कम प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, साथ ही भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

वर्ष	अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान (₹)	अपने संसाधनों से प्राप्त वास्तविक आय (Income from own Sources)(Actual) Excluding the income from IHSDP Beneficiary Share (₹)	बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त की गई कम आय (Income from own Sources) (₹)
2020-21	47200000	42573796	4626204
	Total		₹4626204

10.2 स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में विभिन्न व्यय शीर्षकों के अंतर्गत ₹181.56 लाख का अधिक व्यय :-

संस्थापना व निर्माण कार्य शीर्षक की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय अधिक किया गया जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। स्वीकृत बजट प्रावधान अनुसार ही व्यय किया जाना अपेक्षित था तथा ₹18155886/- की राशि का स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में अधिक व्यय का विवरण निम्न दिया गया है। अतः स्वीकृत बजट प्रावधानों की तुलना में किए गए अधिक व्यय को औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही व्यय करने का प्रयास किया जाना चाहिए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

वर्ष	स्वीकृत बजट प्रावधान (₹)	वास्तविक व्यय (₹)	बजट प्रावधान की तुलना में हेतु अधिक व्यय (₹)
2020-21	92150000	102141077	9991077
2021-22	93250000	101414809	8164809
Total			₹18155886

10.3 गृहकर:-

(क) गृहकर/ सम्पति कर से सम्बंधित मांग व संग्रह रजिस्टर का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण व अद्यतन(Update) न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान गृह कर/सम्पति कर से सम्बंधित मांग व संग्रह रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा गृहकर/सम्पति कर मांग व संग्रह रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर अनुरक्षण किया गया और न ही इसका समय-2 पर अद्यतन (Update) किया गया, गृह कर/सम्पति कर के ज्यादातर मामलों में अवधि 04/2019 से 03/2022 के दौरान वार्षिक माँग की प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही गृह कर/सम्पति कर प्राप्ति सम्बन्धी स्पष्ट विवरण रजिस्टर में दर्ज था। इसके अतिरिक्त सम्बंधित गृहकर/सम्पति कर दाताओं से कितनी राशि वसूली हेतु शेष है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं था जिसके अभाव में गृह कर/सम्पति कर का वार्षिक आधार पर विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न नहीं किया जा सका। अतः अंकेक्षण को अविलम्ब उन सभी कारणों से अवगत करवाया जाए जिस कारण गृहकर/सम्पति कर मांग व संग्रह रजिस्टर का अनुरक्षण व अद्यतन(Update) नियमानुसार नई किया गया तथा शीघ्र अति शीघ्र विहित रजिस्टर का अनुरक्षण व अद्यतन(Update) करके वार्षिक मांग, प्राप्ति व प्रत्येक गृहकर/सम्पति कर दाताओं के अंतिम शेषों को रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-118/22 दिनांक-14.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

(ख) गृह कर/सम्पति कर के निर्धारण हेतु Jaago Foundation को राशि ₹8.86 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान गृह कर/सम्पति कर से सम्बंधित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा गृह कर/ सम्पति कर के निर्धारण व मूल्यांकन का कार्य Award Letter No.-

M.C./HOUSE TAX SURVEY/PWN/2021-1050 दिनांक- 30.04.2021 द्वारा Jaago Foundation को दिया गया। उक्त पत्र की शर्तों अनुसार, Jaago Foundation नगर परिषद् परवाणु क्षेत्र में गृह कर/सम्पति कर के GIS (Geographic Information System) सर्वेक्षण व सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट संबंधी विस्तृत रिपोर्ट सेक्टर वाइज/हाउसहोल्ड वाइज नगर परिषद् को प्रस्तुत करेंगे जिसके अंतर्गत नगर परिषद् परिधि क्षेत्र में आने वाले सभी उद्योगों व भवनों के गृह कर / सम्पति कर का नये सिरे से निर्धारण/मूल्यांकन किया जायेगा तत्पश्चात नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत परिषद द्वारा उक्त रिपोर्ट की सत्यापना करके Jaago Foundation को अनुबंध शर्तों अनुसार, ₹65000/- गृहकर/सम्पति कर सॉफ्टवेर डेवलपमेंट हेतु व ₹225/- की दर से प्रत्येक हाउसहोल्ड के गृह कर/सम्पति कर के मूल्यांकन पश्चात भुगतान किया जाना अपेक्षित था जिसकी रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित Jaago Foundation द्वारा परिषद् को प्रस्तुत करवानी अपेक्षित थी , किन्तु नगर परिषद् द्वारा Jaago Foundation से उक्त रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही निम्नविवरणानुसार राशि ₹886250/- का भुगतान किया गया जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता भी है । अतः Jaago Foundation के पक्ष में किये उक्त भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की सत्यापना अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

Details of Payments Made to Jaago Foundation				
Voucher No.& Date	Cash Book Page	Amount (₹)	Remarks	
84/23.06.2021	76/46	65000	Paid for development of House tax/ Property tax software	
40/19.07.2021	76/77	225000	Paid for GIS based survey including assessment and correction in list of House Tax/Property Tax.	
66/25.08.2021	77/23	337500	-do-	
33/07.12.2021	78/39	258750	-do-	
Total		₹886250		

(ग) गृहकर/ सम्पति कर के सन्दर्भ में मूल्यांकित/ नवीकृत वार्षिक मांग अनुसार वसूली न करने के कारण ₹146.39 लाख की वित्तीय हानि:-

अंकेक्षण के दौरान गृहकर/सम्पत्ति कर से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा निम्न वर्णित प्रकरणों में गृहकर/सम्पत्ति कर के पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) पश्चात भी गृहकर/ सम्पत्ति कर की नवीकृत/मूल्यांकित Assessed Rates वार्षिक मांग अनुसार गृहकर/सम्पत्ति कर की वसूली नहीं की गई, सामान्यतः Lease Deed व Date of Assessment की तिथि से सम्पत्ति कर अधिकृत किया जाना अपेक्षित था, निम्न वर्णित प्रकरणों में Lease Deed व Date of Assessment तिथि से गृहकर/सम्पत्ति कर का मूल्यांकन तो किया गया, किन्तु मूल्यांकित (Assessed rates) दरों के अनुसार गृहकर/सम्पत्ति कर की वसूली सम्बंधित गृहकर/सम्पत्तिकर दाताओं से नहीं की गई जिस कारण नगर परिषद् को गृहकर/सम्पत्ति कर के रूप में दिनांक 31.03.2022 तक निम्नविवरणानुसार कुल ₹14639577/- की वित्तीय हानि हो चुकी है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः नवीकृत/मूल्यांकित वार्षिक मांग अनुसार गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली न करने व पुरानी ही Assessment के आधार पर गृहकर/सम्पत्ति कर की वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही मामले में विभागीय स्तर पर पड़ताल करके ₹14639577/- की वित्तीय हानि हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए अपेक्षित वसूली हेतु शीघ्र अति शीघ्र उचित कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-118/22 दिनांक- 14.07.2022 व तत्पश्चात संशोधित अंकेक्षण अधियाचना स. 120/22 दिनांक 18.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक- 05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Property Holder & Plot No.	Date of Lease Deed/ Date of as	Annual Demand of Property tax assessed as per record (₹)	Annual Demand raised by MC (₹)	Total amount of less Annual demand raised (₹)	Total Years for which less demand raised as on 31.03.2022	Total less demand raised of property tax as on 31.03.2022 (₹)	Remarks
M/s Okaya Industry Plot No. 10 (Sector-5)	22.1.2007	103679	28773	74906	15 years, 2 months, 9 days	1137921	15 years =74906X15= 1123590 2 months =74906X2/12= 12484 9days= 74906/365x9=6242X 9/30= 1847 Total=1123590+124

							84+1847= 1137921
M/s NK Tech. Industry Plot No. 14 (Sector-5)	4.6.2010	107762	30553	77209	11 years, 9 months, 27 days	912917	11 years =77209X11= 849299 9 months =77209X9/12= 57907 27 days =77209/365X27= 5711 Total=849299+5790 7+5711= 912917
M/s Tanjent Power Plot No. 21,22,23 (Sector-5)	4.2.2010	123960	60661	63299	12 years, 1 months, 27 days	769545	12 years =63299X12= 759588 1 months =63299X1/12= 5275 27 days =63299/365X27= 4682 Total=759588+5275 +4682= 769545
M/s Shivalik Industry Plot No. 14 (Sector-2)	13.8.2010	156815	71057	85758	11 years, 7 months, 18 days	1083350	11 years =85758X12= 1029096 7 months =85758X7/12= 50025 18 days =85758/365X18= 4229 Total=1029096+500 25+4229= 1083350
Sanjeev Kumar Jain Khasra No. 901/287/2, 288/2, 290, 291, 292, 299, 300, 301, 903/302/2	16 July, 2018	147542	7260	140282	3 Years, 8 Months, 15 Days	520212	3 Years= 140282x3= 420846 8 Months= 140282x8/12= 93521 15Days=140282/365 x15= 5765 Total=420846+9352 1+5765=520212
M/s Microtech Infosoft Plot No. 62 Sector-5	1.4.2007	171484	37567	133917	15 Years	2008755	15 Years= 133917x15= 2008755
Shivalik Industry Plot No. 4 Sector- 2	1.4.2010	156815	71057	85758	12 Years	1029096	12 Years= 1029096x12= 1029096
M/s Universe Power Product Plot No. 28B Sector-2	1.4.2009	52688	16670	36018	13 Years	468234	13 Years=468234x13= 468234

Max Power Infosys System Plot No. 20 & 20B Sector-2	1.4.2009	212879	106440	106439	13 Years	1383707	13 Years =106439x13= 1383707
Balaji Power Tronics Plot No. 12 Sector-2	1.4.2009	690025	280345	409680	13 Years	5325840	13 Years =409680x13= 5325840
Total						₹14639577	

Note :- Total Years for less demand raised has been counted from the date of lease deed & Date of Assessment..

(घ) गृहकर/सम्पति कर के निर्धारण/मूल्यांकन (Assessment) हेतु विभिन्न उद्योगों के Builtup Area को मूल्यांकन हेतु न लिए जाने के कारण राशि ₹84.36 लाख की संभावित वित्तीय हानि:-

अंकेक्षण के दौरान गृह कर /सम्पति कर के मूल्यांकन सम्बन्धी अभिलेखों की पड़ताल से विदित हुआ कि निम्न वर्णित मामलों में गृहकर/सम्पति कर के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन सम्बन्धी त्रुटियाँ पाई गई , अर्थात् गृह कर /सम्पति कर के मूल्यांकन के समय इसमें मूल्यांकन हेतु उद्योगों के केवल Plot Area को ही शामिल किया गया है, जबकि गृह कर /सम्पति कर के मूल्यांकन हेतु उद्योगों के Builtup Area को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया था ,परिणामस्वरूप गृहकर/सम्पति कर की कम वार्षिक मांग निर्धारित की गई, इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना स. 96/22 दिनांक- 06.05.2022 द्वारा इन सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में विस्तृत सूचना कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु से मांगी गई, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र स. M.C/PWN/Audit/2022-1371 दिनांक-08.06.2022 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, निम्न वर्णित उद्योगों के Builtup Area को मूल्यांकन हेतु न लिए जाने के कारण दिनांक- 31.03.2022 तक गृह कर/ सम्पति कर के रूप में राशि ₹8436363/- की संभावित वित्तीय हानि हो चुकी थी जिसका विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-“च” पर दिया गया है । अतः गृहकर/सम्पति कर के मूल्यांकन हेतु Builtup Area न लिए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त अनियमितता बारे जाँच पश्चात अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-118/22 दिनांक- 14.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु ने पत्र संख्या- MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

(ड) गृहकर/सम्पति कर के मूल्यांकन हेतु Lease Deed की राशि की तुलना में कम राशि लिए जाने के कारण गृहकर/सम्पति कर के रूप में कम वार्षिक मांग निर्धारित करने पश्चात् ₹2.34 लाख की वित्तीय हानि:-

अंकेक्षण के दौरान गृहकर/सम्पति कर से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा निम्न वर्णित प्रकरण में गृहकर/सम्पति कर के निर्धारण/मूल्यांकन के समय, गृहकर/सम्पति कर मूल्यांकन हेतु Lease Deed की राशि से कम राशि ली गई जबकि नियमानुसार गृहकर/सम्पति के मूल्यांकन/निर्धारण हेतु Lease Deed की राशि ही ली जानी अपेक्षित थी निम्न वर्णित उद्योग के सन्दर्भ में Lease Deed (Cost Of Land) की राशि ₹6393522/- थी जिसका Plot Area के सन्दर्भ में गृहकर/सम्पति कर ₹43159/- बनता था जबकि नगर परिषद् द्वारा मूल्यांकन हेतु lease Amount ₹1500000/- लिया गया तथा इसी राशि के आधार पर Plot Area के संदर्भ में ₹10125/- गृहकर/सम्पति कर निर्धारित किया गया परिणामस्वरूप ₹33034/- (43159-10125) की वार्षिक गृह कर/सम्पति कर की कम मांग निर्धारित की गई जिस कारण निम्नविवरणानुसार दिनांक-31.03.2022 तक कुल ₹233991/- की वित्तीय हानि नगर परिषद् को हो चुकी थी। अतः निम्न उद्योग के सम्बन्ध में गृह कर / सम्पति कर के मूल्यांकन हेतु Lease Deed राशि की तुलना में कम राशि लिए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त उद्योग के सम्बन्ध में गृह कर / सम्पति कर के मूल्यांकन हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए राशि ₹233991/- की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 118/22 दिनांक-14.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु ने पत्र संख्या- MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Property Holder & Plot No. & Date of Lease Deed	Total Area in Sqm	Land Cost Taken by MC	Land Cost as Per Lease Deed	Property Tax Raised by MC in Context of Plot Area	Property Tax as Per Audit in Context of Plot Area	Diff.	Total Years for which less demand raised as on 31.03.2022	Total Less Demand
M/s Aarge Healthcraft Plot No. 12A/1 Sector 2 Parwanoo & 27 Feb. 2015	Plot Area= 727.86 m2	1500000	6393522	For Plot Area= 1500000x10%=150000	For Plot Area= 6393522x10%=639392	33034	7 years, 1 month	7Years= 33034x7= 231238 1Month=

Builtup Area= 1991.45 m2			10%=13500 13500@7.5%=10125	10%=575453 575453@7.5%=43159			33034/12= 2753 Total= 231238+2753= 233991
Total							₹233991

Note- Total Loss of Property Tax as on 31.03.2022 has been calculated from the date of Lease Deed.

(च) नगर परिषद परवाणु के अधीन क्षेत्र में नये मर्ज एरिया व मकान संबंध में गृहकर/सम्पत्ति की Assessment न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग, की अधिसूचना सं. एल. एस. जी.-ए (4)-1/78-III दिनांक 17.05.2007 के द्वारा नगर परिषद परवाणु के अधीन क्षेत्र में नये क्षेत्र शामिल किए गए थे। गृहकर /संपत्ति कर के Assessment Register की पड़ताल करने पर पाया गया कि इन नये शामिल क्षेत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई गृहकर /संपत्ति कर, सफाई शुल्क की Assessment नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त नगर परिषद क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान बिजली तथा पानी के लिए अनापति प्रमाण पत्र व भवन नक्शे भी पारित किये गए किन्तु उक्त सभी मामलों के सन्दर्भ में भी गृहकर/सम्पत्ति कर का मूल्यांकन नहीं किया गया । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-118/22 दिनांक-14.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

10.4 दिनांक 31.03.2022 तक सफाई कर, व्यापार कर की ₹22.48 लाख की राशि वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण के दौरान गृहकर, सफाई कर, दुकानों के किराये से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 को ₹2248101/- की राशि वसूली योग्य थी। जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-“छ” एवं संक्षिप्त ब्यौरा निम्न दिया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	वसूली योग्य राशि (₹)
1	सफाई कर	2031002
2	व्यापार कर	217099
	कुल योग	₹2248101

निदेशक शहरी विकास, हि. प्र. के पत्र सं. यू.एल.बी.एच.(ए)(7)-1 /87-9237-9284 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली अपेक्षित थी लेकिन इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी थी। अतः निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के आदेशों के अनुसार करों की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही वसूली योग्य राशि की वसूली अतिशीघ्र की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

10.5 दुकानों का किराया ₹1.48 लाख वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद परवाणु द्वारा दिनांक 31.03.2022 को निम्न विवरणानुसार ₹148262/- दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे। जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट- "ज"** एवं संक्षिप्त ब्यौरा निम्न दिया गया हैं तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में न लाने के कारण वसूली हेतु बकाया राशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Shop Rent

Statement of Rent Outstanding As On 31.3.2022					
Year	Opening Balance (₹)	Demand During The Year (₹)	Total (₹)	Collection During The Year (₹)	Closing Balance (₹)
2019-20	379926	209508	589434	309076	280358
2020-21	280358	212388	492746	406842	85904
2021-22	85904	212388	298292	150030	148262

10.6 सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये के रूप में ₹37.11 की राशि की वसूली न करना:-

नगर परिषद परवाणु द्वारा माह 10/92 से सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) को नगर परिषद परिसर में दो कमरे किराए पर दिये गए थे। अवधि 03/2022 तक कुल किराया की ₹3711310.00 राशि बनती है जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस संबंध में नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) से कोई वसूली नहीं की गई थी। पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदनों से यह मामला कार्यकारी अधिकारी के समक्ष कार्यवाही हेतु लाया जाता रहा है परन्तु इस बारे कोई भी विशेष कार्यवाही परिषद् द्वारा अमल में नहीं लाई जा रही है। अतः पुनः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस मामले में सम्भावित कार्यवाही करके किराये की वसूली हेतु निर्देश जारी करने के साथ ही किराये की शीघ्र अति शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को यथा समय अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Rent Statement for the year 2019-20 to 2021-22 of A. C. Office

Statement of Rent Outstanding As On 31.3.2022					
Year	Opening Balance (₹)	Demand During The Year (₹)	Total (₹)	Collection During The Year (₹)	Closing Balance (₹)
2019-20	3341806	123168	3464974	0.00	3464974
2020-21	3464974	123168	3588142	0.00	3588142
2021-22	3588142	123168	3711310	0.00	3711310

10.7 दुकानों के किराए से संबन्धित अनुबन्धों का नवीनीकरण (Renew) न करना :-

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के आबंटन से संबन्धित अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित दुकानों के आबंटियों के साथ नगर परिषद परवाणु द्वारा आबंटन तिथि से ही अनुबंध का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार किराये का अनुबन्ध दुकान आबंटन की तिथि से तथा तदोपरान्त अनुबंध का नवीनीकरण (Renew) वार्षिक आधार पर या नवीनीकरण की देय तिथि पर किया जाना आवश्यक है, ताकि परिषद के हितों को पूर्णतः सुरक्षित

रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। अतः दुकानों का किराया अनुबन्ध का कार्यान्वयन न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार सभी दुकानों का किराया अनुबन्ध निर्धारित अवधि उपरान्त किराये वृद्धि एवं दण्ड प्रावधानों सहित नवीनीकरण (Renew) किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Detail of Shopkeeper whose agreement has not been made till			
Sr.No.	Name of Allotees	Date of Allotment	Due Date of Agreement
1	Sh. Tarsem Singh	1.03.1990	1.2.2012
2	Sh. Sarwan Singh	1.1.1999	1.10.2001
3	Sh. Umed singh	1.1.1999	1.10.2001
4	Smt Lalita Nagar -2	20.08.2003	20.08.2003
5	Sh. Om Parkash	21.06.2011	21.06.2016

10.8 नगर परिषद् द्वारा दुकान का आबंटन अनियमित ढंग से किये जाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के किराये से सम्बंधित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद् के सेक्टर-1 में स्थित दुकान स.2 जो श्रीमती ललिता नागर पत्नी स्व. श्री अजय नागर को मासिक किराया ₹3593/- पर आबंटित की गई थी, द्वारा दिनांक-19.11.2019 को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् को लिखे पत्र के माध्यम से दुकान को खाली करने व तत्पश्चात दुकान का आबंटन उक्त दुकान में कार्यरत कर्मचारी श्री मुनीश गर्ग सुपुत्र श्री रोशन लाल को आबंटित करने का अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में नगर परिषद् द्वारा उक्त दुकान का आबंटन श्री मुनीश गर्ग पुत्र श्री रोशन लाल को प्रस्ताव संख्या-522 दिनांक - 21.11.2019 को उक्त मासिक किराये में 10% वृद्धि $(3593 \times 10\% + 3593 = 3952)$ करके किया गया जबकि नियमानुसार व The leasing out of Stalls/Shops constructed by the Municipalities in Himachal Pradesh Rules, 2001 के Rule-4 के अनुसार, "The lease money of the Stalls/Shops shall be determined by the Municipality on the basis of competitive

bids. The minimum lease amount shall be worked out by the Municipality on the basis of the market value of the land and cost of construction of Stall/Shops and other relevant factor such as location of Stall/Shop etc.” अर्थात् दुकान का आबंटन करने से पूर्व दुकान की नीलामी की एक न्यूनतम राशि परिषद द्वारा उक्त वर्णित मानकों के आधार पर निर्धारित की जानी अपेक्षित थी, तत्पश्चात् समाचार पत्रों के माध्यम से दुकान की नीलामी के लिए विज्ञापन देकर निर्धारित तिथि को खुली बोली आमंत्रित करके अधिकतम बोली कर्ता के पक्ष में दुकान का आबंटन किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त नियमों की अवेहलना करके परिषद् द्वारा अपने स्तर पर ही दुकान का आबंटन अनियमित ढंग से किया गया जोकि नगर परिषद् के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियमों के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है, यदि उक्त नियमों की अनुपालना करके दुकान का आबंटन किया जाता तो स्वतः ही परिषद् को किराये के रूप में अधिक राशि की प्राप्ति हो सकती थी, अतः नियमों की अवेहलना करके अनियमित ढंग से दुकान का आबंटन करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा दुकान के आबंटन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया अम्ल में लाकर नये सिरे से दुकान का आबंटन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदोपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

10.9 तहसीलदार कसौली को कार्यालय उपयोग हेतु अनियमित ढंग से कमरा आबंटन करने बारे

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 11.04.2016 के द्वारा तहसीलदार कसौली को सामुदायिक भवन के समीप एक कमरा कार्यालय उपयोग हेतु निःशुल्क प्रदान किया गया है, जबकि “Leasing Out of Stalls/Shops constructed by the municipalities in Himachal Pradesh Rules, 2001” के अनुसार, नगर पालिकाओं द्वारा निर्मित किसी भी तरह के भवन/स्टाल/शॉप के आबंटन से पूर्ण विहित औपचारिकताएं प्रावधित है, जिसमे उनके द्वारा निर्मित भवन/स्टाल/शॉप के निःशुल्क आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है, उक्त नियमानुसार

भवन/स्टाल/शॉप के आबंटन से पूर्व विहित प्रक्रिया अपनाते हुए, इसका मासिक किराया निर्धारित करके भवन/स्टाल/शॉप का आबंटन किया जाना अपेक्षित है, किन्तु नगर परिषद के द्वारा नियमों के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए अनियमित रूप से तहसीलदार कसौली को कार्यालय उपयोग हेतु कमरा उपलब्ध करवाया गया, उपरोक्त कार्यालय उपयोग हेतु कमरा आबंटन के सन्दर्भ में परिषद् द्वारा विहित प्रक्रिया अमल में लाई जाती तो स्वतः ही परिषद को किराये के रूप में आय की प्राप्ति हो सकती थी, जिस कारण नगर परिषद द्वारा तहसीलदार कसौली को कार्यालय उपयोग हेतु निःशुल्क कमरा उपलब्ध करवाने के कारण परिषद को हुई वित्तीय हानि से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए अनियमित रूप से तहसीलदार कसौली को कार्यालय हेतु कमरा उपलब्ध करवाने को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा तहसीलदार कसौली को कार्यालय उपयोग हेतु आबंटित कमरे का मासिक किराया नियमानुसार निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.10 बिजली बोर्ड से देय बिजली उपकरण की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी.-(डी)(1)-9/94, दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, नगर परिषद द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उपकरण हि.प्र.बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद परवाणु को अवधि 4/2017 से 09/2017 व अवधि 11/2021 से 03/2022 के दौरान बिजली शुल्क की राशि प्राप्त नहीं हुई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण तुरन्त बिजली बोर्ड से उठाया जाए तथा अवधि 4/2017 से 09/2017 व अवधि 11/2021 से 03/2022 के दौरान बिजली शुल्क की राशि को बिजली खपत के पूर्ण विवरण सहित प्राप्त करने के अतिरिक्त अपेक्षित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित

किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Detail of Electricity Cess Received					
Year	Amount of Electricity Cess Collected (₹)	Date of Receipt	Cash Book page no	Detail of months	Remarks
2019-20	797432	04.05.2020	72/8	Amount Received For The Period 04/19 to 12/19	Amount for the month 4/17 to 9/2017 and 11/21 to 03/2022 has not been Received
2019-21	857027	05.03.2021	75/38	Amount Received For The Period 1/20 to 11/20	
2020-21	89329	05.04.2021	75/70	Amount Received For The month 12/2020	
2020-21	180423	03.05.2021	76/2	Amount Received For The Period 1/21 to 2/21	
2020-21	82305	01.07.2021	76/56	Amount Received For The month 3/21	
2021-22	247765	29.09.2021	77/58	Amount Received For The period 6/21 to 8/21	
2021-22	185118	01.01.2022	78/65	Amount Received For The period 9/21 to 10/21	
Total	₹2439399/-				

10.11 नगर परिषद् को प्राप्त शराब उपकर ₹21.76 लाख के समर्थन में अपेक्षित अभिलेख सूचना अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी. -एच(सी)(9)-28/96-1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार, नगर परिषद परिक्षेत्र में शराब के ठेकों में बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब उपकर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संबन्धित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के लिए नगर परिषद को निम्न विवरणानुसार ₹2176404/- आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से शराब उप कर के रूप में प्राप्त हुए थे। परन्तु इसके समर्थन में नगर परिषद द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण, आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Detail of Liquor Cess Received				
Year	Amount of Liquor Cess Collected (₹)	Date	Cash Book Page no	Remarks
2019-20	719772	29.03.2020	71/81	Amount received for the period 2018-19
2020-21	543675	18.03.2021	75/52	Amount received for the period 2019-20
2021-22	703825	15.12.2021	78/49	Amount received for the period 2020-21 (1.4.20 to 31.12.20)
2021-22	209132	22.02.2022	79/11	Amount received for the period 2020-21 (1.1.21 to 31.03.2021)
Total	₹2176404			

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि वर्ष 2021-22 के लिए देय शराब उप कर की राशि को आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त करने हेतु नगर परिषद द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षण की ओर से परामर्श दिया जाता है कि

आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला, हि. प्र. से नगर परिषद क्षेत्र में अवधि 2019-22 के दौरान शराब की बोटलों की बिक्री का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए, ताकि प्राप्त शराब शुल्क की राशि के सही होने की पुष्टि की जा सकें। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 हेतु देय शराब शुल्क की वसूली हेतु भी अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.12 मोबाईल टावर शुल्क से ₹7.59 लाख वसूली हेतु शेष :-

निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक 25.09.2006 व हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT- Dev-IT-2005(Misc) दिनांक 20.06.2017 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नगर पंचायत/परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹25000.00 स्थापना शुल्क तथा ₹12500.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क सम्बन्धित कम्पनी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान मोबाईल टावर रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 तक नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹758750/- वसूली हेतु शेष थी जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः मोबाईल टावर शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित देय राशि की वसूली हेतु तुरन्त नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-124/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Mobile Tower Fees

Statement of Mobile Tower Fees As On 31.3.2022					
Year	Opening Balance (₹)	Demand During The Year (₹)	Total (₹)	Collection During The Year (₹)	Closing Balance (₹)
2019-20	370000.00	190000.00	560000.00	81250.00	478750.00
2020-21	478750.00	190000.00	668750.00	50000.00	618750.00

2021-22	618750.00	190000.00	808750.00	50000.00	758750.00
---------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

10.13 पार्किंग नीलामी /आबंटन न करने के फलस्वरूप ₹14.40 लाख की संभावित वित्तीय हानि:-

नगर परिषद परवाणु के वार्ड न0 1 में स्थित कार पार्किंग की नीलामी/आबंटन की सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या:R-128/22 दिनांक 27.07.2022 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु से मांगी गई जिसके प्रतिउत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, अंकेक्षण अवधि 2019-22 के दौरान उक्त कार पार्किंग की नीलामी व आबंटन परिषद द्वारा नहीं किया गया जबकि नियमानुसार नगर परिषद द्वारा टेंडर आमंत्रित करके पार्किंग को आबंटित किया जाना अपेक्षित था ताकि आबंटन के फलस्वरूप परिषद को इससे आय अर्जित की जा सके किन्तु नगर परिषद के द्वारा उक्त कार पार्किंग का आबंटन नहीं किया गया कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, उक्त पार्किंग क्षेत्र में 40 गाड़ियों की पार्किंग की क्षमता उपलब्ध है तथा ₹1000/- प्रति महीना प्रति कार की दर से पार्किंग का आबंटन किया जा सकता था, परन्तु नगर परिषद द्वारा पार्किंग की नीलामी व आबंटन हेतु किसी भी तरह की विहित प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, जिस कारण अंकेक्षण अवधि 2019-22 के दौरान पार्किंग आबंटन न करने के फलस्वरूप निम्न विवरण अनुसार, ₹1440000/- की आय की संभावित हानि हुई है, जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसे न्यायोचित ठहराया जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना स. आर-130/22 दिनांक 28.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1938 दिनांक 01.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा । इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-130/22 दिनांक -30.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या MC/PWN/2022-1978

दिनांक -05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने उपरांत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Financial Year	Capacity of Parking	Tentative rate (per month)	Period for which parking not allotted	No of Month	Loss of Revenue due to Non-allotment of Parking During Audit Period (Rs)	Remarks
2019-20	40	1000	1.4.19 to 31.03.2019	12	480000/-	Parking remained vacant/ un-allocated during the audit period 2019-22.
2020-21	40	1000	1.4.2020 to 31.03.2021	12	480000/-	
2021-22	40	1000	1.4.2021 to 31.03.2022	12	480000/-	
Total					₹1440000/-	

11. पेंशन व ग्रेच्युटी निधि:-

11.1 वित्तीय स्थिति:-

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट- "झ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार नगर परिषद के पेंशन व ग्रेच्युटी निधि की अवधि 01.04.19 से 31.03.22 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

Financial Position of Pension & Gratuity Fund of MC Parwanoo						
YEAR	OPENING BALANCE (₹)	RECEIPT DURING THE YEAR (₹)	Interest (₹)	TOTAL (₹)	TOTAL PAYMENTS (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
2018-19	13578266.00	1444101.00	802005.00	15824372.00	2724356.00	13100016.00
2019-20	13100016.00	4083397.00	101235.00	17284648.00	3200609.00	14084039.00
2020-21	14084039.00	2666934.00	1544411.00	18295384.00	5007887.00	13287497.00
2021-22	13287497.00	2292368.00	104134.00	15683999.00	5173738.00	10510261.00
Closing Balance as per Cash Book/ Financial Position as on 31.03.2022						₹10510261.00
Closing Balance as per Bank Accounts as on 31.03.2022 (Detail Given Below)						₹10510261.00
Difference between Closing Balance of Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2021						Nil
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2022						
Particulars						Amount (₹)
Balance of Account No. 101534001001025 of JCC Bank Parwanoo						510261.00
FDR in JCC Bank Parwanoo						10000000.00
Total						₹10510261.00

11.2 पारिवारिक पेंशन हेतु ₹5271/- के अधिक भुगतान करने बारे :-

श्रीमती मधु बाला उर्फ सरला पत्नी सर्वो श्री रमेश कुमार (स्वर्गवास 1.6.2011) को निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या- यू०डी०-एच(बी)(10)-1206/11-1991 दिनांक 5.5.2012 द्वारा 2.6.2011 से पारिवारिक पेंशन ₹4550/- तथा 10 वर्ष बाद साधारण पेंशन ₹3500/- प्रति मास निर्धारित की गई। अतः वित्तीय विभाग हि.प्र. द्वारा समय-2 पर जारी सूचनानुसार दिनांक 2.6.2021 से इन्हें साधारण दर से मूल पेंशन ₹3500/- का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि अंकेक्षण के दौरान सम्बंधित पेंशनर से सम्बंधित विभिन्न भुगतान वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया इन्हें दिनांक- 31.07.2021 तक बड़ी दरों से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया जिस कारण उक्त पेंशनर को अवधि 2.6.2021 से 31.07.2021 की अवधि में ₹1050/- (4550-3500) प्रति माह मूल पेंशन तथा कुल राशि ₹5271/- (After Including all admissible allowances) का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-"ज"** पर दिया गया है। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-125/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

11.3 पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से ₹25.00 लाख की राशि का नगर पालिका निधि को अनियमित स्थानान्तरण किये जाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पेंशन व ग्रेच्युटी निधि की रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹2500000/- की राशि का स्थानान्तरण पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से नगर पालिका निधि को वाउचर संख्या-2 दिनांक 26.03.2022 को परिषद् की व्यय जरूरतों को पूरा करने हेतु किया गया जोकि अनियमित है, क्योंकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 के नियम अनुसार, उक्त निधि से Pension & Gratuity का ही भुगतान किया जा सकता है, किसी भी अन्य कार्य हेतु इस निधि से भुगतान नहीं किया जा सकता। किन्तु नियमों की अवेहलना करते हुए, परिषद द्वारा अपने सामान्य खर्चों हेतु इस राशि का स्थानान्तरण पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से नगर पालिका निधि को किया गया जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नगर पालिका निधि से करके पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-125/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी

नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Voucher no/Date	Cash Book Page no	Amount Paid (₹)	Remarks
2/26.03.2022	60	2500000	Amount transferred from pension & gratuity fund to general fund for municipal general expenditure.
Total		₹2500000	

11.4 पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से Leave Encashment हेतु ₹4.33 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पेंशन व ग्रेच्युटी निधि की रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹433006/- की राशि का निम्न विवरणानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से नगद अवकाश (Leave Encashment) हेतु अनियमित भुगतान किया गया था। जबकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 के नियम अनुसार उक्त निधि से Pension & Gratuity का ही भुगतान किया जा सकता है साथ ही Leave Encashment की राशि का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार Leave Encashment के रूप में ₹433006/- की राशि का भुगतान अनियमित रूप से पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से किया गया। अतः ₹433006/- नगद अवकाश की राशि का पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नगर पालिका निधि से करके पेंशन व ग्रेच्युटी निधि निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-125/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Voucher No/Date	Cash Book Page no	Amount Paid (₹)	To Whom Paid	Remarks
2/1.8.2019	29	433006	Sh. Shashi Kant (Sanitary Inspector)	Leave encashment paid From Pension Fund instead of Municipal Fund

Total	₹433006		
--------------	----------------	--	--

11.5 पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते हेतु ₹0.20 लाख की राशि का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पेंशन व ग्रेच्युटी निधि की रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹19732/- की राशि का निम्न विवरणानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते हेतु अनियमित भुगतान किया गया था। जबकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम अनुसार उक्त निधि से Pension & Gratuity का ही भुगतान किया जा सकता है साथ ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते की राशि का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते के रूप में ₹19732/- की राशि का भुगतान अनियमित रूप से पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से किया गया। अतः ₹19732/- चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते की राशि का पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नगर पालिका निधि से करके पेंशन व ग्रेच्युटी निधि निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-125/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Voucher No/Date	Cash Book Page No	Amount Paid (₹)	To Whom Paid	Remarks
2/1.2.2020	35	10521	Sh.Shashi Kant (Sanitary Inspector)	Medical Reimbursement paid from Pension Fund instead of Municipal Fund
2/1.12.2020	45	9211	Sh. Sudhir Kumar (Executive Officer)	Medical Reimbursement paid from Pension Fund instead of Municipal Fund

Total	₹19732		
--------------	---------------	--	--

11.6 सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG B91)-1/79/III दिनांक 25.04.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक, द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ-साथ इसका रख-रखाव भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उपनियम 3 में प्रावधान किया गया है कि सभी नगरपालिकाएँ कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करेगी। नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था। जोकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 की अवहेलना है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-125/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

11.7 कनिष्ठ अभियंता के स्थानांतरण के पश्चात नियोक्ता अंशदान (पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि) की प्राप्ति न करना।

अंकेक्षण के दौरान पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार कनिष्ठ अभियंता के स्थानांतरण के पश्चात नियोक्ता अंशदान (पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि) की राशि सम्बंधित नगर परिषद से प्राप्त नहीं की गई साथ ही उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा नियोक्ता अंशदान की राशि को प्राप्त करने हेतु कोई पत्राचार भी नहीं किया गया। संबन्धित नगर परिषद से नियोक्ता अंशदान की राशि को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास न किया जाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जबकि नियमानुसार कर्मचारी के स्थानान्तरण के पश्चात नियोक्ता अंशदान की

राशि को सम्बन्धित नगर परिषद से प्राप्त किया गया था जिससे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। अतः नियोक्ता अंशदान (पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि) की राशि को नगर परिषद से प्राप्त न करने को न्यायोचित ठहराया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-125/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Employee who has been transferred from other ULB' S	Name of ULB'S from Where Employee Has been transferred	Date Of Transfer	Period for which employer share not	Remarks
Sh.K.D. Sharma Jr. Engineer	M.C. Solan	16.07.2015	Current date	Transfer Vide letter no UD-H(B)(6)-2/98-V-3916-21 dated 16.07.2015

12. संस्थापना:-

12.1 श्री सुधीर कुमार शर्मा सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी को वेतन के रूप में ₹3.73 लाख का अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान श्री सुधीर कुमार शर्मा को दिनांक-30.04.2020 को कार्यकारी अधिकारी के पद से सेवा निवृत्त किया गया। उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका की पड़ताल पर पाया गया कि निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या - UD-H(B)(10) -1933/19-11015 दिनांक - 9.5.2019 के अनुसार दिनांक-6.12.1986 से कर्मचारी का वेतन संशोधित किया गया तथा संशोधन पश्चात अवधि 6.12.1986 से 30.04.2020 के दौरान उक्त कर्मचारी का आहरित वेतन संशोधित वेतन से अधिक था जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है, उक्त अवधि के दौरान कर्मचारी को वेतन के रूप में ₹372894/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जबकि संशोधित वेतन के पश्चात उक्त कर्मचारी से अपेक्षित वसूली की जानी चाहिए थी। कर्मचारी को किए गए अधिक भुगतान का ₹372894/- का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-"ट"** पर संलग्न किया गया है। नगर परिषद द्वारा कर्मचारी से अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गई जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹458309/- की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-119/22 दिनांक-14.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर

परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Pay fixation of Sh. Sudhir Kumar Sharma Executive Officer D.O.R 30.04.2022								
Pay fixation drawn before approval by Director				Pay fixation approved by Director after objection Raised				
Date	Basic Pay	Grade Pay	Total	Date	Basic Pay	Grade Pay	Total	Remarks
6.12.86	1000	0	1000	6.12.86	950	0	950	Initial Pay
1.12.87	1025	0	1025	1.12.87	975	0	975	Annual Increment
1.12.88	1050	0	1050	1.12.88	1000	0	1000	Annual Increment
1.12.89	1075	0	1075	1.12.89	1025	0	1025	Annual Increment
1.12.90	1100	0	1100	1.12.90	1050	0	1050	Annual Increment
30.11.91	1200	0	1200	30.11.91	1050	0	1050	Selection Grade Pay scale drawn
1.12.91	1230	0	1230	1.12.91	1075	0	1075	Annual Increment
1.12.92	1260	0	1260	1.12.92	1100	0	1100	Annual Increment
31.12.92	1240	20	1260	31.12.92.	1090	10	1100	Master Scale
1.12.93	1280	20	1300	1.12.93	1125	10	1135	Annual Increment
1.12.94	1320	20	1350	1.12.94	1160	10	1170	Annual Increment
1.12.95	1365	20	1385	1.12.95	1200	10	1210	Annual Increment
1.1.96	4400	0	4400	1.1.96	3780	0	3780	Re-

								revision of Scale
1.12.96	4550	0	4550	1.12.96	3780	0	3780	Annual Increment
1.1.97	4550	0	4550	1.1.97	3900	0	3900	Annual Increment
1.8.97	4850	0	4850	1.8.97	3900	0	3900	LSG Diploma Increment Granted
1.12.97	5000	0	5000	1.12.97	3900	0	3900	Annual Increment
1.1.98	5000	0	5000	1.12.98	4020	0	4020	Increment given by MC
1.12.98	5160	0	5160	1.12.98	4020	0	4020	Annual Increment
1.1.99	5160	0	5160	1.1.99	4140	0	4140	Increment given by MC
8.1.99	6400	0	6400	8.1.99	6400	0	6400	Promoted to Executive Officer
1.1.2000	6600	0	6600	1.1.2000	6600	0	6600	Annual Increment
1.1.2001	6800	0	6800	1.1.2001	6800	0	6800	Annual Increment
1.1.2002	7000	0	7000	1.1.2002	7000	0	7000	Annual Increment
1.1.2003	7220	0	7220	1.1.2003	7220	0	7220	Annual Increment
1.1.2004	7440	0	7440	1.1.2004	7440	0	7440	Annual Increment

1.4.2004	7440	3720	11160	1.4.2004	7440	3720	11160	50% Merger of Basic Pay
1.1.2005	7660	3830	11490	1.1.2005	7660	3830	11490	Annual Increment
1.1.2006	14810	4400	19210	1.1.2006	14810	4400	19210	Scale Revised
1.1.2007	15390	4400	19790	1.1.2007	15390	4400	19790	Annual Increment
8.1.2007	15990	4600	20590	8.1.2007	15990	4600	20590	1 Step Up after 8 Year
1.1.2008	16610	4600	21210	1.1.2008	16610	4600	21210	Annual Increment
1.1.2009	17250	4600	21850	1.1.2009	17250	4600	21850	Annual Increment
1.1.2010	17910	4600	22510	1.1.2010	17910	4600	22510	Annual Increment
1.1.2011	18590	4600	23190	1.1.2011	18590	4600	23190	Annual Increment
1.1.2012	19290	4600	23890	1.1.2012	19290	4600	23890	Annual Increment
1.1.2013	20010	4600	24610	1.1.2013	20010	4600	24610	Annual Increment
1.1.2014	20750	4600	25350	1.1.2014	20750	4600	25350	Annual Increment
1.12.2014	22360	5000	27360	1.12.2014	20750	4600	25350	Higher Pay given by MC
11.12.2014	22360	5000	27360	11.12.2014	20750	4800	25550	Higher Pay granted as

								per rule
1.1.2015	23180	5000	28180	1.1.2015	21520	4800	26320	Annual Increment
1.1.2016	24030	5000	29030	1.1.2016	22310	4800	27110	Annual Increment
1.1.2017	24900	5000	29900	1.1.2017	23130	4800	27930	Annual Increment
1.1.2018	25800	5000	30800	1.1.2018	23970	4800	28770	Annual Increment
1.1.2019	26730	5000	31730	1.1.2019	24840	4800	29640	Annual Increment
1.1.2020	27690	5000	32690	1.1.2020	25730	4800	30530	Annual Increment

12.2 कनिष्ठ अभियंता श्री कृष्ण चंद शर्मा को वेतन के रूप में ₹1.28 लाख का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान श्री क्रिशन चंद शर्मा, कनिष्ठ अभियंता की सेवा पंजिका की पड़ताल पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को वेतन के रूप में ₹128275/- की राशि का अनियमित भुगतान किया गया। उक्त कर्मचारी की नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 23.9.2006 को की गई, जिस कारण हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या- No.Fin(PR)-B(7)-64/2010-loose दिनांक 27.09.2012 के अनुसार, दिनांक 23.9.2016 को ₹5400 की ग्रेड पे देय थी परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त कर्मचारी को ₹5400 ग्रेड पे के साथ अनियमित वेतन वृद्धि प्रदान की गई जिसके फलस्वरूप कर्मचारी को अवधि 23.9.2016 से 30.6.2022 के दौरान ₹128275/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-"ठ" पर संलग्न किया गया है। अतः कनिष्ठ अभियंता को वेतन वृद्धि के रूप में किए गए अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-119/22 दिनांक-14.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Pay fixation of Sh. Krishan Chand Sharma Jr. Engineer								
Pay as per Service Book				Pay as per Audit				
Date	Basic Pay	Grade Pay	Total	Date	Basic Pay	Grade Pay	Total	Remarks
1.1.2016	16220	4800	21020	1.1.2016	16220	4800	21020	
23.09.2016	16220	5400	22250	23.09.2016	16220	5400	21620	Higher grade pay granted on the completion of 10 year of regular service on dt. 23.09.2016 but financial benefits given by MC from the date of 1.10.2016.
1.1.2017	17520	5400	30046	1.1.2017	16870	5400	22270	Annual Increment
1.1.2018	18210	5400	22920	1.1.2018	17540	5400	22940	Annual Increment
1.1.2019	18920	5400	24320	1.1.2019	18230	5400	23630	Annual Increment
1.1.2020	19650	5400	25025	1.1.2020	18940	5400	24340	Annual Increment
1.1.2021	20410	5400	25810	1.1.2021	19670	5400	25070	Annual Increment
1.1.2022	21190	5400	26590	1.1.2022	20430	5400	25830	Annual Increment

13. ₹0.18 लाख RTI फीस की राशि को सरकारी कोष में जमा न करना:-

R.T.I ACT 2006 के नियम 5 के अनुसार RTI फीस की राशि को Head of account 0070-OAS,60-OS,800-QR,11 Receipt head under Right to information Act 2005 के अनुसार सरकारी कोष में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान RTI से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के

दौरान निम्न विवरण अनुसार ₹17696/- RTI फीस की राशि को प्राप्ति पश्चात सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया जोकि R.T.I ACT के नियम की अवेहलना के साथ एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए।

Year	Amount Of R.T.I Receipt (₹)
2017-18	448.00
2018-19	498.00
2019-20	3886.00
2020-21	54.00
2021-22	12810.00
Total	₹17696

14 यात्रा भत्ते राशि ₹5440/- का नियमों के प्रतिकूल अधिक भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या O.M No.6-4/74 Fin (Reg, Dated the 25th, April 1975, read with O.M. No Fin (C) B(7)-14/98 dated 08-12-1998) द्वारा यात्रा भत्ते दावों को नियमित करने सम्बंधित नियम प्रतिपादित किये गए हैं जिसके दृष्टिगत नगर परिषद् परवाणु के यात्रा भत्ते बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार राशि ₹5440/- के यात्रा भत्ते का भुगतान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु को निजी वाहन से यात्रा के लिए अपात्र रूप से किया गया था जबकि उपरोक्त नियमों में निजी वाहन से यात्रा की पात्रता केवल ₹6600 ग्रेड पे से अधिक के लिए ही प्रावधित थी परन्तु यात्रा के समय कार्यकारी अधिकारी का ग्रेड पे ₹5000/- था जिस कारण निजीवाहन से यात्रा भत्ते हेतु भुगतान नहीं किया जा सकता है। अतः किए गए भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-123/22 दिनांक-18.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name & Designation	Voucher No. & date	Date of Journey	Station from where journey Performed	Station to Where Journey Performed	T.A Drawn through personal Vechile which is not admissible as per rule (₹)
Sh. Lalit Kumar	34/13.01.2021	9.11.2020	Parwanoo	Solan	640
		12.11.2020	Parwanoo	Solan	640
		19.11.2020	Parwanoo	Solan	640
		20.11.20	Parwanoo	Shimla	800
		23.11.20	Parwanoo	Solan	640
		25.11.2020	Parwanoo	Solan	640
		26.11.2020	Parwanoo	Solan	640
		28.11.2020	Parwanoo	Shimla	800
		Total			

15. निर्माण कार्य:-

15.1 वाऊचर संख्या 106 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹265620/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o new public toilets near community hall sector-2 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	106/21 to 106/23
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2018-350 Dated-10.03.2017
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjay Kumar Garg

(क) **Steel Conversion Factor** गलत लगाए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 5 i.e "Pdg. Mild steel / Tor steel etc" व मद संख्या 9 i.e. "Steel work welded in built up section etc." के संदर्भ में संविदाकार ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 5 i.e "Pdg. Mild steel / Tor steel etc" व मद संख्या 9 i.e. "Steel work welded in built up section etc." के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का

अंकेक्षण करने पर पाया गया कि Steel Conversion Factor गलत लगाए जाने के कारण कुल ₹8241/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः Steel Conversion Factor गलत लिए जाने के कारण संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Name of sub item	Calculation as per M.B	Calculation as Per Audit	Difference in KG	Rate Per Kg (₹)	Excess Paid (₹)
“Steel work welded in built up section etc” (Item No.5)	106/21	Steel Bar 8mm dia	318.88Rmt x 0.62=197.70kg	318.88Rmt x 0.39=124.36kg	73.34kg	65	4767
“Steel work welded in built up section etc.” (Item No.9)	106/23	MS angle 35x35x3	33.48Rmt x 2.60=87.05kg	33.48Rmt x 1.60=53.57kg	33.48kg	88	2946
“Steel work welded in built up section etc.” (Item No.9)	106/23	MS angle 35x35x3	6Rmt x 2.60=15.6kg	6Rmt x 1.60=61.57kg	6kg	88	528
Total							₹8241/-

(15.2) वाऊचर संख्या 106 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹237640/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Drain near maruti service station curliest ner divya sales Sector-1 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	106/47
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2019-291 Dated-01.02.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjay Kumar Garg

(क) अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Excavation in foundation trenches etc in earth work" की तुलना में अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के लिए चौड़ाई की प्रमात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.14 लाख का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Excavation in foundation trenches etc, in earth work" व मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के लिए माप पुस्तिका में वर्णित लम्बाई और चौड़ाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" हेतु मद संख्या 2 i.e. "Excavation in foundation trenches etc, in earth work" की तुलना में चौड़ाई की मात्रा अधिक ली गई थी। जबकि मद संख्या 2 i.e. "Excavation in foundation trenches etc, in earth work" में वर्णित चौड़ाई अनुसार ही मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" का भुगतान किया जाना अपेक्षित था क्योंकि जितनी चौड़ाई में Excavation का कार्य किया गया उसी क्षेत्र में CC 1:6:12 मद का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" हेतु गलत चौड़ाई की मात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹13767/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः संविदाकार को किए इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाया अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

MB No. /Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 2 i.e. "Excavation in foundation trenches etc, in earth work"	Qty Executed & Paid for Item No. 3 i.e. "P/L CC 1:6:12"	Qty of Item No. 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" should be Executed and paid to the contractor as per audit	Difference	Rate (Per cum) (₹)	Total Excess Payment for Item No. 3 (₹)
106/47	For Drain- 1x1x10.20x1.00 x0.10=1.34	For Drain Wall- 1x1x10.20x1.20x0.10=1.22 For Under Wall- 1x1x10.20x1.20x0.10=1.34 For Drain Floor- 1x1x10.20x1.10x0.10=1.12 Total=1.22+1.34+1.12=3.68	For Drain Wall- 1x1x10.20x1.00x0.10=1.02 For Under Wall- 1x1x10.20x1.00x0.10=1.02 For Drain Floor- 1x1x10.20x1.00x0.10=1.02 Total=1.02+1.02+1.02=3.06	0.62 m ³	2850	1767
Total						₹1767

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 6 i.e. "P/L CC 1:2:4" के लिए संविदाकार को राशि ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 6 i.e. "P/L CC 1:2:4" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 106 पृ. सं. 48 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 0.61m³ कार्य प्रमात्रा का ₹5100/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹3111/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"P/L CC 1:2:4" (Item No.6)	106/48	$26 \times \{(2.70+2+3)/4\}$ $\times 0.10=7.28 \text{ m}^3$	$26 \times \{(2.70+2+3)/3\}$ $\times 0.10=6.67 \text{ m}^3$	0.61 m ³	5100	3111
Total						₹3111

15.3 वाऊचर संख्या 53 दिनांक 21.08.2019 राशि ₹146400/-

निर्माण कार्य का नाम	General Digital Survey of existing & new sewerage lines C/o new tanks sockpit adjacent to existing sockpit repair
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	100/98
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2018-285 Dated-01.02.2019
संविदाकार का नाम	M/s SR Associates

(क) Approved Drawing की तुलना में माप पुस्तिका में कार्य की अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण ₹0.25 लाख की राशि का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "General Digital Survey of existing and new sewerage lines C/o new tanks sockpit adjacent to existing sockpit repair etc" के संदर्भ में माप पुस्तिका में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का Approved Drawing के साथ मिलान करने पर पाया गया Approved Drawing अनुसार 6.65 KM के क्षेत्र में General Digital Survey of existing and new sewerage lines के सर्वेक्षण का कार्य किया गया था जिस कारण इतने ही क्षेत्र हेतु संविदाकार को भुगतान देय बनता था जबकि माप पुस्तिका स. 100 पृष्ठ स. 98 पर संविदाकार को General Digital Survey of existing and new sewerage lines के सर्वेक्षण हेतु 8 KM के क्षेत्र हेतु भुगतान किया गया

जिस कारण कुल 1.35KM (8KM-6.65KM) हेतु संविदाकार को ₹18300 प्रति किलो मीटर की दर से राशि ₹24705/- का अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Item & Item No	MB No. & Page	Qty. as Per approved drawing for General Digital Survey of existing and new sewerage lines	Qty. taken or paid for General Digital Survey of existing and new sewerage lines	Difference	Rate Per KM	Excess Payment
1 i.e. "General Digital Survey of existing and new sewerage lines C/o new tanks sockpit adjacent to existing sockpit repair etc"	100/98	6.65km	8km	1.35km	18300	24705
Total						₹24705

15.4 वाऊचर संख्या 24 दिनांक 02.11.2021 राशि ₹589609/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Gaushalla near Rehan Basera building Sector-1 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	91/35
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2016-1096 Dated-29.06.2016
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjay Kumar Garg

(क) अनुबंध की कार्य मद 5 i.e. "Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick" की तुलना में अनुबंध की कार्य मद संख्या 10 i.e. "P/L C.C. 1:2:4" की मात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 5 i.e. "Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick" व मद संख्या 10 i.e. "P/L C.C. 1:2:4" के लिए माप पुस्तिका में

वर्णित लम्बाई और चौड़ाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मद संख्या 10 i.e. "P/L C.C. 1:2:4" हेतु गलत लम्बाई की मात्रा ली गई थी। जबकि मद संख्या 5 i.e. "Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick"में वर्णित लम्बाई अनुसार ही मद संख्या 10 i.e. "P/L C.C. 1:2:4" का भुगतान किया जाना अपेक्षित था क्योंकि जितनी लम्बाई में फॉर्म वर्क का कार्य किया गया उसी लम्बाई में "P/L cement concrete 1:2:4" कार्य किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार मद संख्या 10 i.e. "P/L C.C. 1:2:4" हेतु गलत लम्बाई की मात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹5390/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः संविदाकार को किए गये इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाया अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

MB No. Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 5 i.e. "Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick"	Qty Executed & Paid for 10 i.e. "P/L C.C. 1:2:4"	Qty of Item No. 9 i.e. 10 i.e. "P/L C.C. 1:2:4" should be Executed and paid to the contractor as per audit	Difference	Rate (Per cum)	Total Excess Payment for Item No. 10 (₹)
91/93	Long Beam- 1x3x2x16x0.30= 28.80m ² Short Beam- 1x5x2x9.50 x0.30= 28.5 m ² Total Qty.= 28.80+28.5=	Long Beam- 1x3x16.40x0.30 x0.30=4.42 m ³ Short Beam- 1x5x11.45x0.30x0.3 0=5.15 m ³ Total Qty.= 4.42+5.15=9.57 m ³	Long Beam- 1x3x16x0.30x 0.30= 4.32 m ³ Short Beam- 1x5x9.50x0.30 x 0.30= 4.27 m ³ Total Qty.= 4.32+4.27=8.59 m ³	0.98 m ³	5500	5390
Total						₹5390

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 5 i.e. “ Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick” के लिए संविदाकार को राशि ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 5 i.e. “Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick” के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 91 पृ. 32 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 32.55m² कार्य प्रमात्रा का ₹200/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹6510/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ² (₹)	Excess Paid (₹)
“Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick” (Item No.5)	91/32	5x2x4.65 x0.30= 46.50 m ²	5x2x4.65 x0.30= 13.95 m ²	32.55 m ²	200	6510
Total						₹6510

15.5 वाऊचर संख्या 106 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹268818/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Retaining Wall near Divya Sales Sector-1 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	106/46
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2019-294 Dated-01.02.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjay Kumar Garg

(क) संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 5 i.e “Stone filling behind the Retaining wall” के संदर्भ में ₹0.09 लाख का अनियमित भुगतान:-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 1 i.e “Providing Form Work with Steel Plates” मद संख्या 2 i.e “P/L CC 1:4:8” और मद संख्या 5 i.e “Stone filling behind the

Retaining wall” की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मद संख्या 5 i.e “Stone filling behind the Retaining wall” के संदर्भ में संविदाकार को ₹9672/- की राशि का अनियमित भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्न दिया गया है क्योंकि Form Work का भुगतान एक साइड हेतु किया गया था, जिससे यह ज्ञात होता है कि CC 1:4:8 को रोकने के लिए पीछे के तरफ लगती साइड का सहारा लिया गया था। यदि CC 1:4:8 को पीछे की तरफ लगती साइड से रोका गया था तो Stone Filling behind the Retaining Wall के लिए जगह ही शेष नहीं थी। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को मद संख्या 5 i.e “Stone filling behind the Retaining wall” हेतु अतिरिक्त भुगतान देय नहीं था। अतः मद संख्या 5 i.e “Stone filling behind the Retaining wall” के संबंध में संविदाकार को किए गए ₹9672/- की राशि के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

MB No./P. No.	Item No.1 i.e Form Work (Qty. in sqr.mtr.)	Item No. 2 i.e P/L 1:4:8 (Qty. in cum)	Item No. 5 i.e Stone Filling behind the Retaining wall (Qty. in cum)	Rate of Item No.5 in cum	Total irregular Payment (₹)
106/45 & 46	1x1x14.45x1.80=1 1m ²	1x1x14.45x1.80x 1.80=46.81m ³	1x1x14.45x0.60 x1.20= 10.40m ³	930	9672
Total					₹9672/-

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. “Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick and welded with angle iron in frame 30x30x5mm” के लिए संविदाकार को राशि ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. “Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick and welded with angle iron in frame 30x30x5mm” के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की

गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 106 पृ.स. 45 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 9.31 m² कार्य प्रमात्रा का ₹260/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹2420/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
“Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick etc. (Item No.1)	106/45	26.01+5.35+ 3.66= 44.33 m ²	26.01+5.35+ 3.66= 35.02 m ²	9.31 m ²	260	2420
Total						₹2420

15.6 वाऊचर संख्या 67 दिनांक 16.06.2020 राशि ₹693905/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Road from barrier bridge MC Parking in front of Block No. 29 and 30 Sector-4 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	106/39
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2018-576 Dated-10.04.2018
संविदाकार का नाम	Sh. Vikrant Sharma

(क) संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” के संदर्भ में संविदाकार को ₹0.31 लाख का अनियमित भुगतान :-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” के संदर्भ में संविदाकार को ₹30849/- की राशि का अनियमित भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्न दिया गया है। क्योंकि अनुबंध की मद संख्या 1 i.e.” Demolition of above ground level upto all floor level including

disposal of userviceable material within all leads complete in all respect” में “Disposal of demolished material by mechanical transport up to 4 to 5km Work” शामिल था। इस प्रकार संविदाकार को मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” का अलग से भुगतान देय नहीं था। परंतु निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया संविदाकार को मद संख्या 2 (MB No. 106, P.No. 38) के संदर्भ में ₹30849/- का भुगतान किया गया था। अतः मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” के संबंध में संविदाकार को किए गए ₹30849/-की राशि के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए इसके अतिरिक्त मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” हेतु अनियमित भुगतान करके नगर परिषद निधि की क्षति के लिए ज़िम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Item No. 2 i.e Disposal of Excavated earth by mechanical transport up to 4 to 5km (MB NO. 106 P.No.38)	79.10m3
Rate per m3	390/-
Total Payment	₹30849/-

15.7 वाऊचर संख्या 110 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹693401/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Road from barrier bridge MC Parking in front of Block No. 31 Sector-4 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	106/40
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2018-577 Dated-10.04.2018
संविदाकार का नाम	Sh. Vikrant Sharma

(क) संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” के संदर्भ में संविदाकार को ₹0.33 लाख का अनियमित भुगतान :-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” के संदर्भ में संविदाकार को ₹33345/- की राशि का अनियमित भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्न दिया गया है। क्योंकि अनुबंध की मद संख्या 1 i.e.” Demolition of above ground level upto all floor level including disposal of userviceable material within all leads complete in all respect” में “Disposal of demolished material by mechanical transport up to 4 to 5km Work” शामिल था। इस प्रकार संविदाकार को मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” का अलग से भुगतान देय नहीं था। परंतु निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया संविदाकार को मद संख्या 2 (MB No. 106, P.No. 40) के संदर्भ में ₹30849- का भुगतान किया गया था। अतः मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” के संबंध में संविदाकार को किए गए ₹30849/-की राशि के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए इसके अतिरिक्त मद संख्या 2 i.e Disposal of Unserviceable Material by Mechanical Transport upto 4 to 5 KM” हेतु अनियमित भुगतान करके नगर परिषद निधि की क्षति के लिए ज़िम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Item No. 2 i.e Disposal of Excavated earth by mechanical transport up to 4 to 5km (MB NO. 106 P.No.38)	85.50 m³
Rate per m³	390/-
Total Payment	₹33345/-

15.8 वाऊचर संख्या 106 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹707111/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Gaushala Near Rehan Basera Building Sector-1 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	91/1 to12
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2017-857 Dated-29.05.2015
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjay Kumar Garg

(क) Record Entry माप पुस्तिका की तुलना में Abstract Entry माप पुस्तिका में अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:2:4" की प्रमात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:2:4" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 91 पृ. सं. 1 से 10 (Record MB) पर उपरोक्त मद संख्या की कुल 30.91m³ प्रमात्रा रिकॉर्ड की गई जबकि माप पुस्तिका संख्या 91 पृ. सं. 11 (Abstract MB) में 32.91m³ प्रमात्रा के लिए संविदाकार को भुगतान किया गया जिस कारण कुल 2.00m³ कार्य प्रमात्रा के लिए ₹4990/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹9980/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Qty. Recorded in MB	Qty. taken in Abstract MB	Excess Qty. Taken	Rate (Per m ³)	Excess Paid (₹)
"P/L CC 1:2:4" (Item No. 3)	91/1to10 (Rec.) 91/11 (Ab.)	30.91 m ³	32.91 m ³	2.00 m ³	4990	9980
Total						₹9980

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण कार्य की अतिरिक्त मद संख्या 13 i.e. "2nd class brick masonry in common burnt clay building bricks in CC 1:6:12" के लिए संविदाकार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान:-

कार्य की अतिरिक्त मद संख्या 13 i.e. "2nd class brick masonry in common burnt clay building bricks in CC 1:6:12"के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 91 पृ. 7 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 1.77 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹3489/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹6175/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculati on as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"2 nd class brick masonry in common burnt clay building bricks in CC 1:6:12" (Item No.13)	91/7	48.04m ³	46.27m ³	1.77m ³	3489	6175
Total						₹6175

15.9 वाऊचर संख्या 12 दिनांक 01.06.2020 राशि ₹495462/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o cement cone pavement road from solid waste management plant towards railway line crossing sector-5 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	101/70
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2019-248 Dated-30.01.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Vikrant Sharma

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 4 i.e. "P/L CC 1:2:4" के लिए संविदाकार को ₹0.31 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 4 i.e. "P/L CC 1:2:4" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 101 पृ. 70 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 5.65 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹5500/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹1075/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"P/L CC 1:2:4" (Item No.4) MB No.101 Page No. 70	$1 \times 1 \times 28.80 \times \{(6.25 + 7.00 + 8.30) / 3\} \times \{(0.10 \times 0.15) / 2\}$ =28.93m³ $1 \times 1 \times \{(11.70 + 17.40) / 2\} \times \{(13.20 + 10.50) / 2\} \times \{(0.10 + 0.15) / 2\}$ =24.17m³ Total Qty=28.93+24.17= 53.1 m³ Deduction- $1 \times 2 \times 0.60 \times 0.60 \times \{(0.10 + 0.15) / 2\}$ =0.10 m³ Net Qty =53.1-0.10 =53m³	$1 \times 1 \times 28.80 \times \{(6.25 + 7.00 + 8.30) / 3\} \times \{(0.10 \times 0.15) / 2\}$ =25.85m³ $1 \times 1 \times \{(11.70 + 17.40) / 2\} \times \{(13.20 + 10.50) / 2\} \times \{(0.10 + 0.15) / 2\}$ =21.59m³ Total Qty=25.85+21.59= 47.44m³ Deduction- $1 \times 2 \times 0.60 \times 0.60 \times \{(0.10 + 0.15) / 2\}$ =0.9 m³ Net Qty =47.44-0.09 =47.35 m³	5.65m ³	5500	31075
Total					₹31075

15.10 वाऊचर संख्या 46 दिनांक 03.11.2021 राशि ₹132066/-

निर्माण कार्य का नाम	Cleaning of Drain Nallaha in ward-4 to ward-6 in MC Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	109/66-69
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2021-2153 Dated-27.09.2021
संविदाकार का नाम	Sh. Ankush Panta

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. " Cleaning of Jungle etc" के लिए संविदाकार को ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. " Cleaning of Jungle etc" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 109 पृ. 66-69 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 2049.47 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹6/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹12056/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m2 (₹)	Excess Paid (₹)
"Cleaning of Jungle etc" (Item No.1)	109/66-69	22011 m ²	20001.53m ²	2009.47m ²	6	12056
Total						₹12056

15.11 वाऊचर संख्या 17 दिनांक 02.11.2021 राशि ₹363854/-

निर्माण कार्य का नाम	Repair of MC Staff Building Sector-1A Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	109/65
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2021-2157 Dated-27.09.2021
संविदाकार का नाम	Sh. Shyamanand Patel

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. " Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick Welded with iron angle 30x30x5" और मद संख्या 5.i.e " P/L CC 1:2:4" के लिए संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. " Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick Welded with iron angle 30x30x5" और मद संख्या 5.i.e " P/L CC 1:2:4" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया उपरोक्त मद संख्याओं की माप पुस्तिका में गलत गणना करने के कारण संविदाकार को कुल ₹4674/-की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m2/ m3 (₹)	Excess Paid (₹)
"Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick Welded with iron angle 30x30x5"" (Item No.3)	109/63	1x2x6.10x0.60= 14.64 m ²	1x2x6.10x0.60= 7.32 m ²	7.32 m ²	300	2196
" P/L CC 1:2:4" (Item No.5)	109/64	1x1x4.80{(4.40+ 3.30)/2}x0.07=2. 72 m ³ 1x1x 13.80x5.47= 79.75 m ³ Total Qty.= 2.72+79.75= 82.47 m ³ 82.47m ³ x{(0.05 +0.07+0.10/3)}= 6.05 m ³	1x1x4.80{(4.40 +3.30)/2}x0.07= 1.29 m ³ 1x1x13.80x5.47 = 75.48 m ³ Total Qty.= 1.29+75.48= 76.77 m ³ 76.77m ³ x{(0.05 +0.07+0.10/3)} =5.63 m ³	0.42 m ³	5900	2478
Total						₹4674

15.12 अनुबंध की मद संख्या 3 i.e P/L heavy duty precast CC Interlock Pavers हेतु ₹0.07 लाख का अनियमित भुगतान :-

कार्य का नाम	C/O Interlocked paver tiles parking in front of residential block 18, 14 and opposite block no. 15 Sector-04 Parwanoo.
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	101 /78
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn /Award letter /2018-244 Dated 30.01.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Surender Sandal
वाउचर स./ दिनांक/राशि	78/ 27.08.2019, ₹521343/-

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 1 i.e Excavation in foundation trenches etc in earth work , मद संख्या 2 i.e P/L CC 1:6:12 और मद संख्या 3 i.e P/L heavy duty precast CC Interlocking paver block M-50 Grade की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मद संख्या 3 i.e P/L heavy duty precast CC Interlocking paver block M-50 Grade के संदर्भ में संविदाकार को ₹7543/- की राशि का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्न दिया गया है। क्योंकि बिना Excavation और CC 1:6:12 के ही प्रमात्रा {1x1x0.916x8.55+8.80/2=7.94 m³} के लिए मद संख्या 3 i.e P/L heavy duty precast CC Interlocking paver block M-50 Grade हेतु ₹950 m² की दर से किया गया जबकि माप पुस्तिका में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख नहीं था कि Interlocking paver किस क्षेत्र में लगे थे जिस कारण यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है । अतः मद संख्या 3 i.e P/L heavy duty precast CC Interlocking paver block M-50 Grade के संबंध में संविदाकार को किए गए ₹7543/- की राशि के अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Name of Item & Item No	MB No.& Page No.	Qty Executed and paid for Item No. 3	Rate/m2	Total irregular Payment (₹)
3 i.e P/L heavy duty precast CC Interlocking paver block M-50 Grade (Item No. 3)	101/76	1x1x0.916x{(8.55+8.40)/2}=7.94 m ²	950	7543
Total				₹7543

15.13 वाऊचर संख्या 44 दिनांक 03.11.2021 राशि ₹623839/-

निर्माण कार्य का नाम	P/F MS channel & pre coated MS sheet boundary of MSW Dumping Yard
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	105/63
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2021-1833 Dated-29.09.2021
संविदाकार का नाम	Sh. Devinder Kumar

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "2nd class brick masonry in common burnt clay" के लिए संविदाकार को ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 3 i.e. "2nd class brick masonry in common burnt clay"के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 105 पृ. 59 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 0.86 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹520/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹4472/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"2 nd class brick masonry in common burnt clay" (Item No.3)	105/59	1x1x0.304x0.23 x1.45= 0.96 m ³	1x1x0.304x0.2 3x1.45= 0.10 m ³	0.86 m ³	5200	4472
Total						₹4472

15.14 वाऊचर संख्या 112 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹44362/-

निर्माण कार्य का नाम	Cleaning of Jungle in ward no. 3 and 5 in MC Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	106/72

आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2017-2152 Dated-28.08.2017
संविदाकार का नाम	Sh. Kewal Krishan

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Cleaning of Jungle including uprooting of rank vegetation, grass brush, wood, trees and sampling of girth upto 30cm at a height of 1m etc" के लिए संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Cleaning of Jungle including uprooting of rank vegetation, grass brush, wood, trees and sampling of girth upto 30cm at a height of 1m etc" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 106 पृ. 70,71 और 72 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 838.86 m² कार्य प्रमात्रा का ₹6.50/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹5453/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ² (₹)	Excess Paid (₹)
"Cleaning of Jungle etc." (Item No.1)	106/70 to 72	6825m ²	5986.14 m ²	838.86 m ²	6.50	5453
Total						₹5453

15.15 वाऊचर संख्या 51 दिनांक 11.06.2020 राशि ₹556394/-

निर्माण कार्य का नाम	Repair/Replacement new sewerage line in ward no. 9 Sector-1A near Chunni Lal House
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	106/57
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2017-2344 Dated-22.08.2017
संविदाकार का नाम	Sh. Sahil Sharma

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के लिए संविदाकार को ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 106 पृ. 55 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 1.48 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹3150/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹4662/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"P/L CC 1:6:12" (Item No.3)	106/55	(10.80+10.8 0+10.80) x {(0.10+0.12 +0.15)/3}= 5.47 m ³	(10.80+10.8 0+10.80) x {(0.10+0.12 +0.15)/3}= 3.99 m ³	1.48 m ³	3150	4662
Total						₹4662

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 7 i.e. "P/L heavy duty precast CC interlocking pavers blocks 80mm thick upto M-50 grade" के लिए संविदाकार को राशि ₹476/- का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 7 i.e. "P/L heavy duty precast CC interlocking pavers blocks 80mm thick upto M-50 grade" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 106 पृ. 56 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 0.34 m² कार्य प्रमात्रा का ₹1400/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹476/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ² (₹)	Excess Paid (₹)
"P/L heavy duty precast CC interlocking pavers" (Item No.7)	106/56	52.00+70.89+83.46+68.06+26.3=301.05 m ²	52.00+70.89+83.46+68.06+26.3=300.71 m ²	0.34 m ²	1400	476
Total						₹476

15.16 वाऊचर संख्या 19 दिनांक 03.06.2020 राशि ₹364273/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o cement cone retaining wall back side of residential block No. 14 sector-4
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	103/88
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2018-255 Dated-30.01.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Surender Kumar Sandal

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Steel Work Welded in built up section etc" के लिए संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Steel Work Welded in built up section etc" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 103 पृ. सं. 88 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 62.38kg कार्य प्रमात्रा का ₹84/- प्रति किलो ग्राम की दर से कुल ₹5240/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया

गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per kg (₹)	Excess Paid (₹)
“Steel Work Welded in built up section etc” (Item No.1)	103/88	Hollow Pipe(25x25x5) 2x3x0.69= 31.74Rmt 31.74Rmt x 2.26= 71.73kg	Hollow Pipe(25x25x5) 2x3x0.69= 4.14Rmt 4.14 Rmt x 2.26= 9.35kg	62.38kg	84	5240
Total						₹5240

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. “Painting two coats with enamel paint brushing” के लिए संविदाकार को राशि ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. “Painting two coats with enamel paint brushing”के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 103 पृ. सं. 88 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 26.53m³ कार्य प्रमात्रा का ₹65/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹1724/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ² (₹)	Excess Paid (₹)
“Painting two coats with enamel paint brushing” (Item No.2)	103/88	1x2x12x1x 0.97= 49.81 m ²	1x2x12x1x 0.97= 23.28 m ²	26.53 m ²	65	1724
Total						₹1724

15.17 वाऊचर संख्या 106 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹237640/-

निर्माण कार्य का नाम	R/M of Sewerage line and septic tank in various sectors Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	107/7
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2019-2177 Dated-04.12.2018
संविदाकार का नाम	M/s S. R. Associates

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Demolition of Pavement road upto 1.50m depth" के लिए संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Demolition of Pavement road upto 1.50m depth" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 107 पृ. 2 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 3.78 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹740/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹2797/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"Demolition of Pavement road upto 1.50m depth" (Item No.1)	107/2	1x1x4.70x0.45 x0.20= 4.20 m ³	1x1x4.70x 0.45x0.20= 0.42 m ³	3.78 m ³	740	2797
Total						₹2797

(ख) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के लिए संविदाकार को ₹510/- का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 107 पृ. 3 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना

गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 0.15 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹3400/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹510/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"P/L CC 1:6:12" (Item No.3)	107/2	5.67 m ³	5.52 m ³	0.15 m ³	3400	510
Total						₹510

15.18 वाऊचर संख्या 108 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹534807/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o road in front of block no. 29&30 in Sector-6 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	102/86
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2017-3009 Dated-30.09.2017
संविदाकार का नाम	Sh. Saurav Daroch

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L heavy duty precast cement concrete interlocking pavers" के लिए संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L heavy duty precast cement concrete interlocking pavers" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 102 पृ. 85 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 1 m² कार्य प्रमात्रा का ₹1100/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹1100/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
3 i.e. "P/L heavy duty precast cement concrete interlocking pavers" (Item No.3)	102/85	1x1x0.55x0.75= 1.30m ² 6.90x{(5.50+5.30+3.45)/3}=32.88 m ² Total Qty= 1.30+32.88=34.18 m ²	1x1x0.55x0.75= 0.41 m ² 6.90x{(5.50+5.30+3.45)/3}=32.77 m ² Total Qty=1 m ² 0.41+32.77=33.18 m ²	1 m ²	1100	1100
Total						₹1100

15.19 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्धित दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹280/- का अधिक भुगतान

निर्माण कार्य का नाम	C/o RR to retain the nallaha near block no. 37 Sector-6 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	103/92
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2019-1842 Dated- 29.09.2018
संविदाकार का नाम	Sh. Devender Kumar Jadla
वाऊचर संख्या/दिनांक /राशि	109/30.06.2020 Rs. 550056

उपरोक्त निर्माण कार्य के भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या 3 i.e. "Pdg weep hole in brick masonry (100mm dia) के निष्पादन हेतु अनुबन्धित दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹280/- का अधिक भुगतान किया गया जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Name of item & Itme No.	Total Qty Executed	Quoted rate (₹)	Negotiated rate(₹)	Difference in rate(₹)	Excess Paid(₹)
"Pdg weep hole in brick masonry (100mm dia) (Item No. 3)	14Nos	250	230	20	280
Total					₹280

15.20 वाऊचर संख्या 106 दिनांक 30.06.2020 राशि ₹85798/-

निर्माण कार्य का नाम	Removal of Slips and cleaning of drain in Block No. 33& 34 Sector-6 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	106/68
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2019-2152 Dated-01.02.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjay Garg

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Excavation in dumped stone or mulba" के लिए संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Excavation n dumped stone or mulba" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 106 पृ. 69 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 19.5 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹165/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹3217/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"Excavation n dumped stone or mulba" (Item No.1)	106/69	1x1x15x4x{(0.40+1.20+1.50+2.10)/4}= 97.5 m ³	1x1x15x4x{(0.40+1.20+1.50+2.10)/4}= 78 m ³	19.5 m ³	165	3217
Total						₹3217

15.21 वाऊचर संख्या 63 दिनांक 15.11.2021 राशि ₹144926/-

निर्माण कार्य का नाम	Providing and laying 60mm interlocking tiles in front of kapok company Sector-3 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	109/58

आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2020-2051 Dated-21.09.2021
संविदाकार का नाम	Sh. Kewal Krishan

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Excavation in foundation trenchets in work etc" के लिए संविदाकार को राशि ₹554/- का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Excavation in foundation trenchets in work etc" के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 106 पृ.स. 58 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 1.98 m³ कार्य प्रमात्रा का ₹280/- प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹554/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"Excavation in dumped stone or mulba" (Item No.1)	106/58	43.60+26.70+ 25.5= 97.78 m ³	43.60+26.70+ 25.5= 95.80 m ³	1.98 m ³	280	554
Total						₹554/-

15.22 वाऊचर संख्या 19 दिनांक 02.11.2021 राशि ₹292284/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o Parking in front of block no. 27, Sector-6 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	109/60

आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2021-2161 Dated- 27.09.2021
संविदाकार का नाम	Sh. Kewal Krishan

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की विभिन्न मदों हेतु संविदाकार को राशि ₹494 का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 1 i.e. "Earth work in Surface Including excavation upto 30cm in depth" , 2 i.e. P/L CC 1:6:12 और 3 i.e. "P/L Heavy Duty Precast CC Interlocking Paver"s के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उपरोक्त मद संख्याओं की गणना गणना में गलती किये जाने के कारण संविदाकार को कुल ₹494/-की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"Earth work in Surface Including excavation upto 30cm in depth" (Item No.1)	109/59	$1 \times 1 \times 12.25 \{ (1.10 + 1.60/2) \} = 16.87 \text{ m}^3$	$1 \times 1 \times 12.25 \{ (1.10 + 1.60/2) \} = 16.53 \text{ m}^3$	0.34 m ³	55	19
P/L CC 1:6:12 (Item No. 2)	109/59	$1 \times 1 \times 12.25 \times \{ (1.10 + 1.60/2) \} \times \{ (0.04 + 0.05 + 0.07 + 0.10/4) \} = 1.096 \text{ m}^3$	$1 \times 1 \times 12.25 \times \{ (1.10 + 1.60/2) \} \times \{ (0.04 + 0.05 + 0.07 + 0.10/4) \} = 1.074 \text{ m}^3$	0.022 m ³	4600	101
P/L Heavy Duty Precast CC Interlocking Pavers (Item No.-3)	109/60	$1 \times 1 \times 12.25 \times \{ (1.10 + 1.60/2) \} = 16.87 \text{ m}^3$	$1 \times 1 \times 12.25 \times \{ (1.10 + 1.60/2) \} = 16.53 \text{ m}^3$	0.34 m ³	1100	374
Total						₹494

15.23 वाऊचर संख्या 33 दिनांक 03.11.2021 राशि ₹137202/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o R-wall in front of Sai Mandir, Sector-5 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	109/72
आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2021-1617 Dated-03.08.2021
संविदाकार का नाम	Sh. Ritesh Berry

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की मद संख्या 4 i.e. "Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick " के लिए संविदाकार को राशि ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान:-

अनुबंध की मद संख्या 4 i.e. "Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick " के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 109 पृ. 71 पर उपरोक्त मद संख्या की गणना गलत ली गई थी जिस कारण संविदाकार को कुल 26.01 m² कार्य प्रमात्रा का ₹240/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹6242/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m2(₹)	Excess Paid (₹)
"Pdg. Form work with steel plates 3.15mm thick " (Item No.4)	109/71	117.11 m ²	91.1 m ²	26.01 m ²	240	6242
Total						₹6242

15.24 वाऊचर संख्या 25 दिनांक 02.11.2021 राशि ₹637175/-

निर्माण कार्य का नाम	Improvement of Road from M/s Bhatia Furniture towards Rehan Basera Sector-1 Parwanoo
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	110/11

आबंटन पत्र संख्या	M.C./Pwn/Award letter/2020-2583 Dated-17.12.2020
संविदाकार का नाम	M/s S. R. Associates

(क) गणना में गलती किए जाने के कारण अनुबंध की विभिन्न मदों हेतु संविदाकार को राशि **₹0.01 लाख का अधिक भुगतान:-**

अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. P/L CC 1:6:12 और 4 i.e. "P/L Factory made chamfered edge CC Paver block in path, parks, lawns etc." के संदर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उपरोक्त मद संख्याओं की गणना गणना में गलती किये जाने के कारण संविदाकार को कुल ₹1460/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को किए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Item/ item No	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation as per Audit	Difference	Rate Per m ³ / m ³ (₹)	Excess Paid (₹)
"P/L CC 1:6:12" (Item No.3)	110/11	24.39 m ³	24.33 m ³	0.06 m ³	4600	276
"P/L Factory made chamfered edge CC Paver block in path, parks, lawns etc." (Item No.4)	110/11	457.31 m ²	456.28 m ²	1.03 m ²	1150	1184
Total						₹1460

15.25 Conversion Factor गलत लिए जाने के कारण विभिन्न संविदाकारों को ₹0.02 लाख की राशि का अधिक भुगतान

निम्न वाक्यों के माध्यम से विभिन्न संविदाकारों को उनके द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्यों हेतु भुगतान किया गया था। इन सभी भुगतानों के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबंध की मद Steel work in Built up section में Running meter को किलो ग्राम में Convert करते समय Conversion Factor गलत लगाए जाने के कारण संविदाकारों को **₹2030/-** की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः **₹2030/-** की

राशि के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of work	Item for which wrong conversion factor taken	Conversion Factor taken for converting RMT into KG	Conversion Factor as per Standard	Excess Conversion factor taken per RMT	Qty Executed in RMT	Total Excess Qty. in KG	Rate per kg	Total Excess payment (₹)
Voucher No. 22 Dt.03.06.2020 ₹363703/- C/o Interlocked paver tiles parking in front of residential block pollution control board in front of block no. 14-15 sector-4 Parwanoo MB NO. 106,P.No. 31 to 36 Name of Contractor – Sh. Surinder Kumar Sandal	MS Flat 50x6 MB No.106 P.No. 34	3.14 kg per RMT	2.40kg per RMT	0.74kg per RMT	18 RMT	13.32kg	84.5	1125
Voucher No. 24 Dt.02.11.2021 ₹589609/- C/o Gaushalla near Rehan Basera Building Sector-1 Parwanoo MB NO. 91,P.No. 30 to 35 Name of Contractor – Sanjay Kumar Garg	Steel Bar 20mm MB No.91 P.No. 31	2.57 kg per RMT	2.46 kg per RMT	0.11kg per RMT	45 RMT	4.95kg	65	322
Voucher No. 44 Dt.03.11.2021 ₹270334/- P/F MS Channel & Pre coated MS Sheet boundry of MSW Dumping Yard MB. No. 105/59-63 Name of Contractor – Sh. Devinder Kumar	Angle 40x40x5 MB No.105 P.No. 62	5.40 kg per RMT	3.00kg per RMT	2.40kg per RMT	2.70 RMT	6.48kg	90	583
Total								₹2030

15.26 (क) Detail Estimate, व Rate of analysis तैयार किये बिना संविदाकार को ₹27.89 लाख का अनियमित भुगतान :-

कार्य का नाम	Pdg. Hire charges of JCB for Loading of tactor trolley tipper MC Soild Waste and Dumping Site
आबंटन पत्र संख्या	MC/PWN/Award Letter/ 2018-465 Dt. 28.03.2018
संविदाकार का नाम	Sh. Vikrant Sharma

उपरोक्त कार्य का आबंटन श्री विक्रान्त शर्मा को आबंटन पत्र संख्या MC/PWN/Award Letter/ 2018-465 दिनांक-28.03.2018 द्वारा Pdg. Hire charges of JCB for Loading of tactor trolley tipper MC Solid Waste at dumping site and leveling up the site हेतु किया गया जिसके अंतर्गत संविदाकार द्वारा नगर परिषद डंपिंग साईट सेक्टर-5 में एकत्रित सॉलिड वेस्ट को ट्रेक्टर ट्रॉली में Load करके नगर निगम शिमला डंपिंग साईट भरयाल तक पहुँचाने व निपटाने का कार्य किया जायेगा उपरोक्त कार्य हेतु आबंटन की शर्त अनुसार संविदाकार को मासिक आधार पर ₹195000/- का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त कार्य से सम्बंधित माप पुस्तिकाओं व भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस कार्य के निष्पादन हेतु कार्य का Detail of Estimate व Rate of Analysis तैयार नहीं किया गया था कि कार्य को पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि क्या होनी चाहिए, कितना Tonn Garbage Disposal प्रतिदिन किया जाना अपेक्षित होगा व कितना Tonn Garbage Dispose किया जा चुका है, इससे सम्बंधित विवरण माप पुस्तिका में दर्ज नहीं था। इसके अतिरिक्त Garbage Dispose हेतु कौन से वाहन का प्रयोग किया जाएगा तथा वाहन हेतु कितनी लागत प्रतिदिन आएगी इससे सम्बंधित कोई प्राकलन तैयार नहीं किया गया। इस कार्य हेतु संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹2788500/- का भुगतान किया गया जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है। अतः बिना Detail Estimate, व Rate of analysis व कार्य के पूर्ण विवरण दर्ज किये संविदाकार को किये ₹2788500/- के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या- MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Work & Agreement No.	Voucher No. & date	MB No. & Page No.	Period for which Total Payemt Made	Amount Paid to Contractor (₹)
Providing Hire Charges JCB for loading of Tractor/Tipper MC Solid Waste at dumping site (Per Tone) Sector-5 Agreement No. MC/PWN/Award Letter/ 2018-465 Dt. 28.03.2018	50/20.08.2018	96/98	29.05.2018 to 29.07.2018	390000
	30/10.10.2018	101/36	30.07.2018 to 30.09.2018	390000
	33/17.12.2018	101/42	01.10.2018 to 01.12.2018	390000
	27/15.01.2019	101/49	01.12.2018 to 31.12.2018	195000
	37/14.02.2019	101/51	01.01.2019 to 31.03.2019	195000
	23/08.03.2019	101/55	01.02.2019 to 28.02.2019	195000
	33/12.04.2019	99/99	01.03.2019 to 31.03.2019	195000
	21/10.05.2019	101/71	01.04.2019 to 30.04.2019	195000
	32/19.06.2019	101/72	01.05.2019 to 31.05.2019	195000
	13/04.07.2019	95/100	01.06.2019 to 30.06.2019	195000
	46/17.08.2019	101/81	01.07.2019 to 09.08.2019	253500
	Total			

(ख) संविदाकार को GST के रूप में राशि ₹5.01 लाख का अनियमित अधिक भुगतान करने बारे:-

उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार को अनुबंध पत्र की शर्तों अनुसार ₹195000/- का मासिक भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान उक्त कार्य से सम्बंधित भुगतान वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा संविदाकार को ₹195000/- के मासिक भुगतान के अतिरिक्त इसी राशि पर 18% GST के रूप में अतिरिक्त भुगतान भी किया गया जबकि अनुबंध पत्र में संविदाकार द्वारा जो दरें भरी थी उसमें कहीं भी 18% GST भुगतान का विवरण नहीं था तथा नगर परिषद् द्वारा नेगोशिएशन (Negociation) के दिन 18% GST का अतिरिक्त भुगतान का विवरण नेगोशिएशन (Negociation) पत्र में दर्ज किया गया तथा उसी अनुसार माप पुस्तिका में उक्त राशि पर

18% अतिरिक्त GST की प्रविष्टि दर्ज करके अतिरिक्त भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार GST का भुगतान संविदाकार द्वारा सम्बंधित विभाग को स्वयं करना होता है, तथा भुगतान पश्चात संविदाकार द्वारा GST Clearance Certificate नगर परिषद को प्रदान किये जाने अपेक्षित होते है क्यूंकि किसी भी कार्य के प्राकलन तैयार करते समय उसमे सभी प्रकार के करों जैसे कि - लेबर सेस, GST, EPF, व संविदाकार लाभ इत्यादि को शामिल किया जाता है तत्पश्चात Work Estimate तैयार करके कार्य हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाते है, जिस कारण संविदाकार के पक्ष में अनुबंध राशि के भुगतान के अतिरिक्त, अनुबंध राशि पर 18% अतिरिक्त GST का भुगतान देय नही बनता था जबकि परिषद द्वारा माप पुस्तिका में 18% GST की प्रविष्टि दर्ज करके संविदाकार के पक्ष में कुल ₹501930/- का अतिरिक्त भुगतान GST के रूप में किया गया जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा संविदाकार के पक्ष में किये अतिरिक्त GST भुगतान ₹501930/- की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या- MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Work & Agreement No.	Voucher No. & date	MB No. & Page No.	Period for which Total Payemt Made	Gross Amount of Bill (₹)	GST Extra Paid to Contractor @ 18% of Gross Amount of Bill ₹
Providing Hire Charges JCB for loading of Tractor/Tipper MC Solid Waste at dumping site (Per Tone) Sector-5 Agreement No. MC/PWN/Award Letter/ 2018-465 Dt. 28.03.2018	50/20.08.2018	96/98	29.05.2018 to 29.07 2018	390000	70200
	30/10.10.2018	101/36	30.07.2018 to 30.09.2018	390000	70200
	33/17.12.2018	101/42	01.10.2018 to 01.12.2018	390000	70200
	27/15.01.2019	101/49	01.12.2018 to 31.12.2018	195000	35100
	37/14.02.2019	101/51	01.01.2019 to 31.03.2019	195000	35100
	23/08.03.2019	101/55	01.02.2019 to 28.02.2019	195000	35100
	33/12.04.2019	99/99	01.03.2019 to	195000	35100

			31.03.2019		
21/10.05.2019	101/71		01.04.2019 to 30.04.2019	195000	35100
32/19.06.2019	101/72		01.05.2019 to 31.05.2019	195000	35100
13/04.07.2019	95/100		01.06.2019 to 30.06.2019	195000	35100
46/17.08.2019	101/81		01.07.2019 to 09.08.2019	253500	45630
Total				₹2788500	₹501930

16 E-Tendering की प्रक्रिया से बचने हेतु निर्माण कार्य को ₹5.00 लाख से कम गुणकों में बांटकर संविदाकारों को आबंटन किए जाने बारे ।

निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(F)- Tender-Engg-Cell -23793-847 दिनांक 07.04.2015 के अनुसार अवधि 21-03-2016 तक ₹1 लाख तथा अवधि 21-03-2016 के पश्चात ₹5 लाख अधिक के निर्माण कार्य हेतु E-Tendering के माध्यम से कार्य का आबंटन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की पड़ताल पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2021-22 के दौरान ₹2206215/- के निर्माण कार्य को E-Tendering के माध्यम से आबंटित न करने को दर किनार (Avoid) करने हेतु ₹2206215/-के निर्माण कार्य को निम्न विवरणानुसार पांच लाख के कम गुणकों में बांटकर अपने स्तर पर ही संविदाकारों को आबंटित किया गया था । सामान्यतः E-Tendering के माध्यम से कार्य आबंटित करने से निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर होने की संभावना बनी रहती है, जिससे नगर परिषद को वित्तीय लाभ होता तथा साथ ही बाजार प्रतिस्पर्दा का भी लाभ मिलता। अतः बिना E-Tendering के माध्यम से कार्य के आबंटन का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Sr. No	Name Of Work	Name of Contractor	Award Letter No. & Date	Estimated Amount of Work
1	Construction of Cement Cone Retaining wall back side of residential block no. 14 main road sector-4 Parwanoo	Sh. Surender Kumar Sandal	MC/PWN/Award letter/2019-251 Dt. 30.01.2019	499990
2	Construction of Cement Cone Retaining wall back side of residential block no. 14 main road sector	Sh. Surender Kumar Sandal	MC/PWN/Award letter/2021-255 Dt. 30.01.2019	450000
3	Construction of Cement Cone Retaining wall back side of residential block no. 14 main road sector	Sh. Surender Kumar Sandal	MC/PWN/Award letter/2021-257 Dt. 30.01.2019	499850
4	Construction of Cement Cone Retaining wall opposite of residential block no. 1 main road sector-3 Parwanoo	Sh. Surinder Singh	MC/PWN/Award letter/2019-482 Dt. 22.02.2019	499953
5	Construction of Cement Cone Retaining wall opposite of residential block no. 4 Nallaha - 3 Parwanoo	Sh. Surinder Singh	MC/PWN/Award letter/2021-483 Dt. 22.02.2019	256422
	Total			₹2206215

17 E-Tendering की प्रक्रिया से बचने हेतु निर्माण कार्य को ₹1.00 लाख से कम गुणकों में बांटकर संविदाकारों को आबंटन किए जाने बारे ।

निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या-UD-H(F)- Tender-Vol-III-Engg.Cell-69773-69828 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा सभी ULBs को आदेश जारी किये गये थे कि ₹1.00 लाख से अधिक के निर्माण कार्य को E-Tendering के माध्यम से आबंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अंकेक्षण के दौरान उक्त दिनांक पश्चात् आबंटित निर्माण कार्यों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा E-Tendering की प्रक्रिया से बचने के लिए निर्माण कार्यों को ₹1.00 लाख से कम गुणकों

में बांटकर संविदाकारों को आबंटित किया गया। E-Tendering के माध्यम से कार्य आबंटित करने से निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर होने की संभावना बनी रहती है, जिससे नगर परिषद को वित्तीय लाभ होता है तथा साथ ही बाजार प्रतिस्पर्धा का भी लाभ मिलता। अतः बिना E-Tendering के माध्यम से कार्य के आबंटन का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Sr. No	Name Of Work	Name of Contractor	Award Letter No. & Date	Estimated Amount of Work
1	Repair & Maintenance of Bitumen Road Near Shiv Mandir Sector-4 Parwanoo	Sh.Nand lal	MC/PWN/Award letter/2021-1631 Dt. 03.08.2021	95000
2	Repair & Maintenance of Bitumen Road Near MC Toilet Sector-4 Parwanoo	Sh. Nand Lal	MC/PWN/Award letter/2021-1629 Dt. 03.08.2021	95000
3	Repair & Maintenance of Bitumen Road in front of Gole Market Sector-4 Parwanoo	Sh. Nand Lal	MC/PWN/Award letter/2021-1630 Dt. 03.08.2021	95000
4	Repair & Maintenance of Bitumen Road Near Check Post Sector-4 Parwanoo	Sh. Suraj Thakur	MC/PWN/Award letter/2021-1627 Dt. 03.08.2021	95000

5	Repair & Maintenance of Bitumen Road in front of Park Post Sector-4 Parwanoo	Sh. Suraj Thakur	MC/PWN/Award letter/2021-1628 Dt. 03.08.2021	95000
6	Repair & Maintenance of Bitumen Road near Block No. 3, Sector-4 Parwanoo	Sh. Suraj Thakur	MC/PWN/Award letter/2021-1626 Dt. 03.08.2021	95000
7	Providing and Laying Interlocking tiles 60mm From Kapco Company towards National Highway Sector-3 Parwanoo	Sh. Kewal Krishan	MC/PWN/Award letter/2021-2054 Dt. 21.09.2021	95000
8	Providing and Laying Interlocking tiles 60mm From Kapco Company towards National Highway Sector-3 Parwanoo	Sh. Kewal Krishan	MC/PWN/Award letter/2021-2051 Dt. 21.09.2021	95000
9	Providing and Laying Interlocking tiles in front of Kapco Company towards National Highway Sector-3 Parwanoo	Sh. Kewal Krishan	MC/PWN/Award letter/2021-2055 Dt. 21.09.2021	95000
10	Providing 60mm thick heavy duty precast cement cone paver on path in front block no. 4 & 2 sector-3 Parwanoo Phase –I	Sh. Devinder Kumar Jadla	MC/PWN/Award letter/2020-1492 Dt. 28.07.2020	82561
11	Providing 60mm thick heavy duty precast cement cone paver on path in front block no. 4 & 3 sector-3 Parwanoo Phase-II	Sh. Devinder Kumar Jadla	MC/PWN/Award letter/2020-1491 Dt. 28.07.2020	84380

12	Providing 60mm thick heavy duty precast cement cone paver on path in front block no. 4 & 3 sector-3 Parwanoo Phase-II	Sh. Devinder Kumar Jadla	MC/PWN/Award letter/2021-1493 Dt. 28.07.2020	78002
Total				₹1099943

18 निर्माण कार्य भुगतान बिलों से प्रतिभूति की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकारों को ₹1.98 लाख का अनुचित लाभ दिये जाने बारे।

निम्न वर्णित निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में भुगतान वाऊचर/माप पुस्तिका की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया कि इन कार्यों हेतु भुगतान से पूर्व संविदाकारों के बिलों से प्रतिभूति (Security) की राशि ₹198113/- की कटौती नहीं की गई थी। जबकि निर्माण कार्य हेतु 10% की कटौती की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार 10% प्रतिभूति(Security) की कटौती न करके संविदाकारों को ₹198113/- की राशि का अनुचित लाभ दिया गया। अतः संविदाकारों के बिलों से ₹198113/- प्रतिभूति की राशि की कटौती न करने को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Work	MB No & Page	Gross Amount of Bill	Security Deduction @10% of Gross Amount	Name of Contractor
General Digital Survey of existing & new sewerage lines C/o new tanks sockpit adjacent to existing sock pit repair	100/98	146400	14640	M/s S.R. Associates
Cleaning of Jungle in various ward No. 3 & 5 in MC Parwanoo	106/72	44362	4436	Sh. Kewal Krishan

Emptying of Sewerage tank	102/86	210375	21037	Sh. Sourabh Daroch
Providing Supply and Fixing victorial steel benches in various wards of Parwanoo	104/98	480000	48000	Sh. Hardeep Singh
Supply of Steel Benches	109/72	550000	55000	Sh. Hardeep Singh
Supply of Steel Benches	109/73	550000	55000	Sh. Hardeep Singh
Total			₹198113	

19 बिना अनुदान/आय प्राप्ति के निर्माण कार्यों का आबंटन/निष्पादन करने पश्चात् दिनांक- 31.03.2022 तक नगर परिषद् निधि पर निर्माण कार्यों बिलों के भुगतान सम्बन्धी ₹151.67 लाख की देनदारियों बारे:-

अंकेक्षण के दौरान टेंडर रजिस्टर व निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का आबंटन/निष्पादन अनुदान/आय प्राप्ति बिना ही किया गया था, इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं. 103/22 दिनांक- 25.05.2022 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से सूचना मांगी गई जिसके प्रतिउत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, दिनांक-31.03.2022 तक नगर परिषद निधि पर विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों के भुगतान सम्बन्धी निम्न विवरण अनुसार ₹15167506/- की देनदारियां लंबित थी इन सभी कार्यों के निष्पादन हेतु नगर परिषद को किसी भी तरह की आय/अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई थी और न ही परिषद की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ है जो परिषद को बिना अनुदान/आय प्राप्ति के ₹15167506/- के निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाए इसके पश्चात भी परिषद द्वारा ₹15167506/- के निर्माण कार्यों का आबंटन व निष्पादन किया गया जोकि परिषद की निति नियोजन के प्रति कमज़ोर रणनीति को परिलक्षित करती है। अतः बिना अनुदान/आय प्राप्ति के निर्माण कार्यों का आबंटन/निष्पादन करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले में विभागीय स्तर पर पड़ताल करके उक्त कार्यों के आबंटन/निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा अनुपालना से

अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Sr. no.	Name of work	Award letter no. & date	Awarded Amount	Date of completion	Gross amount	MB no & page no
1	Providing supplying of MS grating in front of HRTC pump main road side drain sector-2 parwanoo	16/3/19	112200.00	21/12/21	100570.00	111/37
2	Construction of CC drain chaneelization to manage the storm water and land erosion from Atal parks towards blocks r/ 15/30 MC Parwanoo	27/12/21	179074.00	5/2/22	177685.00	109/81-82
3	Construction of retaining wall in front of block no. 20 hill side sector-4 parwanoo	164-21/01/22	549374.00	25/4/22	549374.00	109/82-87
4	Providing and laying interlocked paver tile in front of sector-4	598-7/3/22	475473.00	01/4/22	284876.00	93/99
5	Providing and laying MS railing in block no.31,34 33 sector-	527/9/21	482340.00	14/12/21	216466.00	109/87-89
6	Improvement of road sector-3 ward no.3 to	Nil	632553.00	14/12/21	516805.00	109/90-91

	resolved the NCAP matter Parwanoo					
7	Construction of retaining wall in front of block no. 7 sector-5 parwanoo	2478- 27/12/20	656946.00	15/11/21	348144.00	111/44-48
8	Improvement of road from Shiv Mandir to Barrier sector-4 Parwanoo	2524- 30/11/21	407370.00	14/01/22	408698.00	109/95-96
9	Construction of sewer septic tanks and soak pit near Shivalik hotel adjoining the PWD culvert sector-1A parwanoo part-2	1983-26/9/20	179350.00	10/12/20	154484.00	91/53-54
10	sewer septic tanks and soak pit near Shivalik hotel adjoining the PWD culvert sector	1976-26/9/20	139365.00	08/2/22	139365.00	91/55
11	sewer septic tanks and soak pit near Shivalik hotel adjoining the PWD culvert sector	1982-26/9/20	137860.00	10/02/22	136720.00	91/56
12	sewer new supplementary septic adjoining the Laxmi floor mill sector-6 parwanoo part-II	2123-26/9/20	172764.00	10/11/21	171600.00	91/46
13	sewer new supplementary septic adjoining the Laxmi floor mill sector-6 parwanoo	22/10/20	159212.00	20/12/21	171600.00	91/46

	part-II					
14	sewer new supplementary septic adjoining the Laxmi floor mill sector-6 parwanoo part-v	22/10/20	154040.00	30/12/21	103634.00	91/47
15	sewer new supplementary septic adjoining the Laxmi floor mill sector-6 parwanoo part-v	22/10/20	135291.00	128/12/21	131371.00	91/44
16	sewer new supplementary septic adjoining the Laxmi floor mill sector-6 parwanoo part-iv	22/10/20	104608.00	15/12/21	103750.00	91/45-46
17	Development of root beat zone near Samtal company sector-2	24/9/20	163994.00	25/5/21	160746.00	110/24-25
18	Improvement of road from main road to sector- 5 chowk sector-5	2469-31/3/22	565977.00	19/6/22	565483.00	104/67-68
19	Construction of CC paraphet over and earth filling , P/l concrete pavement between road and retaining wall near Divya Sales road side Nalla to protect the road	2124- 22/10/20	185421.00	12/01/22	182879.00	109/91-93
20	Construction of CC retaining wall near Divya	2122- 22/10/20	153802.00	15/02/22	129525.00	109/93-94

	sales road side Nalla to protect the road					
21	Repair/replacement and laying new sewer line in sector-1 ward 1 near HPSEB to HRTC work shop and Bhatiya furniture 250 mtrs length	2347-2/8/2017	969646.00	3/4/22	630240.00	97/91
22	Providing and fixing MS railing on both side of stair side from Dhaggad to sector-4 Parwanoo	2147-27/9/21	517433.00	20/01/22	31057.00	104/74-76
23	Improvement of road from park to block no.1 sector-4 Parwanoo	2460-22/11/21	548746.00	20/12/21	465724.00	111/41-42
24	Annual repair and maintenance of Bitumen work	24/5/21	185381.00	02/02/22	184877.00	108/62-63
25	Annual repair and maintenance of Bitumen work sector-6	24/5/21	185381.00	29/03/22	178332.00	108/39-40
26	Annual repair and maintenance of Bitumen work sector-1	24/5/21	185381.00	02/02/22	185361.00	108/59-60
27	Annual repair and maintenance of Bitumen work sector-1	1280-24/5/21	185381.00	15/03/22	185001.00	108/61-62
28	Annual repair and maintenance of Bitumen work sector-1	1279-21/6/21	185381.00	02/03/22	181367.00	108/47-48
29	repair and maintenance	21/6/21	185381.00	02/02/22	185816.00	108/51-52

	of Bitumen work sector-6					
30	Annual repair and maintenance of Bitumen work sector-6	1270-21/6/21	185381.00	15/02/22	184759.00	108/50-51
31	Annual repair and maintenance of Bitumen work sector-6	1256-21/6/21	185381.00	25/03/22	184759.00	108/50-51
32	Annual repair and maintenance of Bitumen work sector-1	1284-21/6/21	185381.00	14/02/22	183072.00	108/64-65
33	repair and maintenance of Bitumen work sector-6	1273-21/6/21	185381.00	02/02/22	185065.00	108/57-58
34	Annual repair and maintenance of Bitumen work Santa Niwas sector-1A	1278-21/6/21	185381.00	10/02/22	184734.00	108/45-46
35	Annual repair and maintenance of Bitumen work near block no. 29 sector-6	21261-1/6/21	185381.00	28/02/22	184424.00	108/36-37
36	Annual repair and maintenance of Bitumen work near Dogra house sector-1A	1275-21/6/21	185381.00	20/02/22	185031.00	108/44-45
37	Annual repair and maintenance of Bitumen work near block no.71 sector-6	1265-21/6/21	185381.00	18/02/22	184473.00	108/54-56
38	Annual repair and maintenance of Bitumen work near block no.31	1260-21/6/21	185381.00	12/02/22	184298.00	108/53-54

	sector-6					
39	Annual repair and maintenance of Bitumen work from mc shop towards children park sec-6	1257-21/6/21	185381.00	02/01/22	184764.00	108/37-39
40	P/l chekered tiles near Mayur cinema sector-1 Parwanoo	17/12/21	175815.00	21/2/22	184764.00	108/48-49
41	p/l interlocking tile near Divya sales	2475-7-12-2020	191627.00	25/2/22	162609.00	106/99
42	Special R/m of rhan basera building	1995-28-9-2020	175079.00	15/4/21	175079.00	111/67-73
43	P/f MS steel railing near HRTC workshop on side sect-1	2000-28-9-2020	118930.00	25/4/21	117464.00	111/67-66
44	P/l 80 mm tiles in front of saini house sector-3	2537-01-12-21	133125.00	09/02/21	129990.00	111/64-65
45	P/f pre-coated GI sheet around boundary SWM yard sector-5	2934-21-1-21	563460.00	08/02/22	539528.00	91/51-52
46	Balance work of block no.48,47 and AC residence at sector-6	1998-28-9-2020	76668.00	12/2/22	93568.00	91/49-50
47	Balance work of block no.37,48,47 and AC residence at sector-6	1999-28-9-2020	158304.00	15/4/21	13531.00	91/47-48
48	P/f MS grating near telephone exchange sect-1	2002-28-9-2020	112200.00	02/02/22	112200.00	91/52-53
49	R/m of old existing working women hostel belonging to MC	1914-8-10-2018	499000.00	21/5/2020	860023.00	105/51-58

	Parwanoo					
50	p/l sewer line from Madhu ghee towards Sirmour chowk	1985-26-09-2020	110000.00	28/2/21	102112	111/75
51	sewer septic tanks and soak pit near Shivalik hotel adjoining the PWD culvert sector	1977-224/9/20	168870.00	20/02/21	155148.00	111/73-74
52	p/l sewer line from Madhu ghee towards Sirmour chowk	1986-26-09-2020	112350.00	20/01/21	112000.00	111/82
53	p/f CGI sheet around boundary of SWM yard sector-5	129-34-20/1/22	563460.00	03/02/22	539528.00	91/51-52
54	Balance work of block no-47,48 and AC residence sector-6	1998-28-09-2020	706681.00	13/2/22	73568.00	91/49-50
55	p/f MS grating near telephone exchange sector-1	2002-28-09-2020	112200.00	08/02/22	112200.00	91/52-53
56	Balance work of block no-37,47,48 and AC residence sector-6	1999-28-09-2020	158304.00	09/2/22	158270.00	91/47-48
57	c/o retaining wall in ward no. 5 and ward no.9 MC Parwanoo	100-13/01/22	514005.00	15/6/20	514005.00	111/76-77
58	p/l interlocked paver tiles in sector-4 parwanoo	94-13/01/22	461176.00	10/04/22	436144.00	111/80-81
59	Repair of drain and sewerage line sh Bhullar house sector-2 Parwanoo	2582-17/12/2020	152532	15/4/22	146136.00	111/82-84
60	C/o CC retaining wall to protect the road near Radha Soami sat sang	82-13/01/22	522873.00	08/02/22	480600.00	111/56-58

	ghar sector-1					
61	Providing supplying and fixing of MS railing in front of Block no 5-6 sector-4 Parwanoo	2149-27/09/2021	508896.00	05/02/22	508376.00	111/58-64
62	C/o retaining wall in front of block no. 6 sector-4 ward no 6 parwanoo	2148-27/09/2021	508896.00	15/02/22	490071.00	104/98-99
63	C/o CC retaining wall back side of block no. 1 near Shiv Mandir park sector-4	1550-30/7/21	125343.00	21/12/21	123663.00	91/57-58
				Total	₹15167506/-	

20 बिना अनुदान/आय प्राप्ति के निर्माण कार्यों का आबंटन करने पश्चात् नगर परिषद् निधि पर निर्माण कार्यों बिलों के सम्भावित भुगतान ₹71.88 लाख की देनदारियों बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना स. 103/22 दिनांक- 25.05.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक-31.03.2022 तक निम्न विवरणानुसार ₹7188476/- के निर्माण कार्यों का आबंटन विभिन्न संविदाकारों को Awarded Amount पर किया गया था तथा इन सभी कार्यों के आबंटन हेतु नगर परिषद् को किसी भी तरह की आय/अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई थी और न ही परिषद् की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ है जो परिषद् को बिना अनुदान/आय प्राप्ति के ₹7188476/- के निर्माण कार्यों के आबंटन की अनुमति देती है बावजूद इसके भी परिषद् द्वारा ₹7188476/- के निर्माण कार्यों का आबंटन संविदाकारों को किया गया तत्पश्चात् निम्न कार्यों का निष्पादन भी संविदाकार द्वारा किया जा चुका है किन्तु इन सभी कार्यों की प्रविष्टि माप पुस्तिका में दर्ज नहीं की गई जिस कारण नगर परिषद् निधि पर निम्न कार्यों हेतु ₹7188476/- से अधिक राशि की देनदारियों से भी इन्कार नहीं किया जा सकता जोकि परिषद् की निति नियोजन के प्रति कमज़ोर रणनीति को परिलक्षित करती है। अतः बिना अनुदान/ आय प्राप्ति के राशि ₹7188476/- के निर्माण कार्यों का आबंटन करने औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले में विभागीय स्तर पर पड़ताल करके उक्त कार्यों के आबंटन/निष्पादन हेतु उतरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक- 05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Sr. no.	Name of work	Award letter no. & date	Award amount	Present status of bill as on 31/03/22	Remark
1	Providing supplying of MS grating and tile road HPSEBL rest house sector-4	81/- 13/01/22	514901.00	Work executed	Work executed but not entered in MB
2	Development of root beat zone near Samtal company sector-2	24/9/20	157990.00	Work executed PCB Grant	--do--
3	Paint work of railing and wire mesh sector-4,5 and other required locations MC Parwanoo	2052- 21/09/21	357500.00	Work executed	--do--
4	Improvement of road crossing drain near allied industries sector-5 and other various sector MC Parwanoo	1915- 25/7/2019	502769.00	Second running bill Work executed	--do--
5	Providing MS railing and CC of paraphets infront of income tax building sect-1A Parwanoo	2479- 7/12/2020	133470.00	Work executed	--do--
6	Paint work of railing and wire mesh sector-4,5 and other required locations MC Parwanoo	2052- 21/09/21	357500.00	Work executed	--do--
7	Paint work of railing and wire mesh sector-5 and other required locations MC Parwanoo	2052- 21/09/21	327500.00	Work executed	--do--
8	Construction of sewer septic tanks and soak pit near Shivalik hotel adjoining the PWD 9culvert sector-1A arwanoo part-2	1978- 24/9/20	179350.00	Work executed	--do--

9	Removal and disposal of Malba/slips from ews block 9-10 accumulated due to heavy rain and also repair of roadside drain sector-4	2572-17/12/20	357500.00	Work executed	--do--
10	Construction of sewer septic tanks in front of block no.1 experimental block sector -3 Parwanoo	2565-17/12/20	169728.00	Work executed	--do--
11	Construction of sewer septic tanks and soak pit near Shivalik hotel adjoining the PWD 9culvert sector-1A arwanoo part-2	2566-17/12/20	164748.00	Work executed	--do--
12	Construction of sewer septic tanks and soak pit near Shivalik hotel adjoining the PWD 9culvert sector-1A arwanoo part-2	2567-17/12/20	159972.00	Work executed	--do--
13	Cleaning and repair of Nala	1984-26-09-20	112350.00	Work executed	--do--
14	Cleaning and repair of Nala	1984-26-09-20	112350.00	Work executed	--do--
15	Cleaning and repair of Nala	2113-26-10-20	112350.00	Work executed	--do--
16	p/l sewer line from Madhu ghee towards Sirmour chowk	2112-20-10-2020	151950.00	Work executed	--do--
17	p/l sewer line from Madhu ghee towards Sirmour chowk	2114-20-10-2020	170250.00	Work executed	--do--
18	p/l sewer line from Madhu ghee towards Sirmour chowk	1987-26-09-2020	110000.00	Work executed	--do--
19	Construction of sewer septic tank in front of experimental block sector-3	2564-17/12/20	145240.00	Work executed	--do--
20	Construction of sewer septic tank in front of experimental block sector-3	2565-17/12/20	160345.00	Work executed	--do--

21	Construction of sewer septic tank in front of experimental block sector-3	2566-17/12/20	155220.00	Work executed	--do--
22	Repair maintenance of working women hostel	520-4/3/22	390000.00	Na	--do--
23	Refixing of paver in various location damaged during Jio OFC laying	2477-23/11/21	499999.00	Na	--do--
24	C/o retaining wall and sewerage work in various locations to retain the sewer line	521-4/3/22	45000.00	Na	--do--
25	Construction of waste water inlet tank and renovation of root zone Samtal Nala experimental block sector-3	9 13/01/22	560242.00	Work executed	--do--
26	Construction of Public toilets in ward 2	90-13/01/22	541972.00	Work executed	--do--
27	Construction of Public toilets near MC shops sector-1	481/01/22	538280.00	Work executed	--do--
	Total		₹7188476		

21 सफाई ठेके से सम्बंधित ₹29.23 लाख के अनावश्यक व्यय बारे :-

कार्य का नाम	Providing Tractor Trolley for Carrying Burms (Malba) From the various Sector / wards in MC Parwanoo including 3 Nos. Labour
आबंटन पत्र संख्या	MC/PWN/TRACTOR-TROLLY/2019-2530 Dated-15.12.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Shyama Nand Patel

उपरोक्त सफाई कार्य का आबंटन पत्र सं MC/PWN/TRACTOR-TROLLY/2019-2530 दिनांक- 15.12.2019 द्वारा संविदाकार को किया गया जिसके अंतर्गत संविदाकार द्वारा 3 न0 मजदूर तथा 1 न0 ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर सहित परिषद को प्रदान किए जाएंगे, जिनका प्रमुख कार्य परिषद् की सफाई व्यवस्था, रिहायशी मकानों, व्यावसायिक संस्थानों व औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े-करकट

को ट्रेक्टर ट्राली में भरवाकर नगर परिषद कूड़ा सयंत्र साईट सेक्टर-5 तक पहुँचाने का होगा तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा संविदाकार को ₹3600/- प्रति दिन की दर से भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा घर-घर कूड़ा उठाना, परिषद् परिधि क्षेत्र में झाड़ू लगाना तथा ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य का आबंटन अलग से किया गया है अंकेक्षण अधियाचना सं. 77/22 दिनांक 18.04.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, नगर परिषद् कार्यालय में 9 न0 सफाई कर्मचारी, 7 न0 बेलदार और 2 न0 चालक नियमित रूप से कार्यरत है इसके अतिरिक्त परिषद् के पास अपना 1 न0 ट्रेक्टर ट्राली भी मौजूद है, जिसका प्रयोग नगर परिषद् द्वारा सफाई कार्य हेतु नहीं किया जा रहा है। अतः कर्मचारियों व संसाधनों की उपलब्धता होने के बावजूद भी परिषद् द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹2923183/- का अनावश्यक व्यय किया गया तथा वर्तमान समय में नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति जोकि दिन-प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, को देखते हुए परिषद् के पास अपने विभागीय मजदूर व ट्रेक्टर ट्रॉली होने के बावजूद भी इस तरह का अनावश्यक व्यय परिषद निधि पर अनुचित प्रभार प्रतीत होता है। अतः उक्त वर्णित संसाधनों की उपलब्धता होते हुए भी उपरोक्त कार्य हेतु किए ₹2923183/- के व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ में इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस तरह के कार्यों हेतु पूर्ण जाँच पड़ताल पश्चात कार्यवाही की जाए तथा परिषद् के पास उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण दोहन पर जोर दिया जाए ताकि परिषद निधि से अनावश्यक व्यय पर रोक लगाकर व्यय विकासात्मक कार्यों हेतु किया जाना संभव हो सके। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Work	Name of Contractor	Amount Paid up to 31.03.2022 (₹)
Providing Tractor Trolley for Carrying Burms (Malba) From the various Sector / wards in MC Parwanoo including 3 Nos. Labour	Sh. Shyamanand Patel	(2019-20) ₹571630/-
-do-	-do-	(2020-21) ₹1107506/-

-do-	-do-	(2021-22) ₹1244047/-
Total		₹2923183/-

22 नगर परिषद द्वारा बनाये गये शौचालयों के रख रखाव हेतु ₹4.38 लाख का अनियमित भुगतान:-

कार्य का नाम	Providing Safai Worker for Cleaning of Public and community toilet from the various sector/wards in Municipal Jurisdiction
आबंटन पत्र संख्या	MC/PWN/SANITATION CONTRACT/2019-2528 Dated- 15.12.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Sanny

उपरोक्त कार्य का आबंटन पत्र सं. MC/PWN/SANITATION CONTRACT/2019-2528 दिनांक- 15.12.2019 द्वारा संविदाकार को नगर परिषद द्वारा बनाए गये सार्वजनिक-सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु किया गया जिसके अंतर्गत संविदाकार द्वारा नगर परिषद के शौचालयों के रख-रखाव हेतु 4 न0 कर्मचारी नगर परिषद को प्रदान किये जायेंगे तथा नगर परिषद द्वारा संविदाकार के पक्ष में मासिक आधार पर ₹42400/- का भुगतान किया जायेगा उपरोक्त कार्य से सम्बंधित विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार को दिनांक-31.03.2022 तक ₹438669/- का भुगतान किया गया जबकि आमतौर पर नगर परिषदों द्वारा बनाए गये शौचालयों को ठेके पर देकर उनसे आय प्राप्त की जाती है, किन्तु निम्न मामले में विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए परिषद द्वारा संविदाकार ₹438669/- का भुगतान किया गया जोकि नगर परिषद निधि पर अनुचित प्रभार प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Work	Amount Paid up to 31.03.2022 (₹)	Remarks
Providing Safai Worker for Cleaning of Public and	(2020-21) 61800/-	4 Nos Safai worker were deployed by contractor for

community toilet from the various sector/wards in Municipal Jurisdiction	(2021-22) 376869/-	cleaning public and community toilet in various sectors/wards parwanoo.
Total	₹438669	

23 सीवरेज लाइन्स रख-रखाव व शिकायत निवारण हेतु ₹22.30 लाख का अनावश्यक व्यय:-

कार्य का नाम	Cleaning of Sewerage Lines Drainage System and other miscellaneous Sanitation work
आबंटन पत्र संख्या	MC/PWN/SEVERAGE CONTRACT/2019-2528 Dated-15.12.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Amar Pal

उपरोक्त कार्य का आबंटन पत्र सं. MC/PWN/SEVERAGE CONTRACT/2019-2528 दिनांक- 15.12.2019 द्वारा संविदाकार को नगर परिषद् द्वारा सीवरेज लाइन्स के रख रखाव/सफाई व सीवरेज शिकायत निवारण हेतु किया गया, जिसके अंतर्गत संविदाकार द्वारा नगर परिषद् परिक्षेत्र के अंतर्गत सीवरेज लाइन्स की सफाई संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु 6 न0 कर्मचारी नगर परिषद् को प्रदान किये जाएंगे तथा नगर परिषद् द्वारा संविदाकार के पक्ष में मासिक आधार पर ₹64200/- का भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त कार्य से सम्बंधित विभिन्न भुगतान वाउचरों व अभिलेखों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक निम्न विवरणानुसार ₹2230912/- का भुगतान संविदाकार को उक्त कार्य हेतु किया गया। अंकेक्षण अध्याचना सं. 77/22 दिनांक 18.04.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, नगर परिषद् कार्यालय में 9 न0 सफाई कर्मचारी, 7 न0 बेलदार नियमित रूप से कार्यरत है साथ ही नगर परिषद् द्वारा वार्ड वाइज सफाई का कार्य भी अलग से आबंटित किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर परिषद् परिक्षेत्र में वार्ड वाइज सफाई सम्बन्धी कार्य किया जाता है। अतः संसाधनों की उपलब्धता व समान प्रकृति के कार्य आबंटन के पश्चात भी सीवरेज लाइन्स की सफाई संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु अलग से कार्य आबंटित करने व तत्पश्चात इस कार्य हेतु ₹2230912/- के व्यय को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाएं साथ ही सफाई से सम्बंधित सभी ठेकों की विभागीय स्तर पर पड़ताल करके इस

कार्य हेतु परिषद निधि से हो रहे अनावश्यक व्यय के निवारण हेतु विशेष कदम उठाये जाएं तथा अंकेक्षण के द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि सफाई कार्य हेतु आबंटित विभिन्न कार्यों को एकत्रित करके बड़े स्तर पर कार्य का आबंटन किया जायें ताकि परिषद निधि से इन कार्यों हेतु हो रहे अनावश्यक व्यय पर लगाम लगाई जा सकें तथा परिषद निधि का प्रयोग अन्य विकासात्मक कार्य हेतु किया जाएं।

Name of Work	Amount Paid up to 31.03.2022 (₹)	Remarks
Cleaning of Sewerage Lines Drainage System and other miscellaneous Sanitation work	(2019-20) ₹714000/-	6 Nos Safai worker were deployed by contractor for cleaning of Sewerage Lines in various sectors/wards parwanoo.
	(2020-21) ₹723400/-	
	(2021-22) ₹793512/-	
Total	₹2230912/-	

24 Clearing of Jungle & Removal of Slips etc. कार्यों हेतु ₹6.33 लाख के अनावश्यक व्यय करने बारे -

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों से सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹633891/- का व्यय Clearing of Jungle & Removal of Slips etc. से सम्बंधित कार्यों हेतु किया गया अंकेक्षण अधियाचना स. 77/22 दिनांक 18.04.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर परिषद कार्यालय में 9 न0 सफाई कर्मचारी व 7 न0 बेलदार नियमित रूप से कार्यरत है निम्न विवरणानुसार ₹633891/- के कार्य जिस हेतु नगर परिषद् द्वारा संविदाकारों को भुगतान किया गया अपनी विभागीय मजदूरों से करवाएं जा सकते थे वर्तमान में नगर परिषद की वित्तीय स्थिति जोकि दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है को देखते हुए परिषद के पास अपने विभागीय मजदूर होने के बावजूद भी इस तरह का अनावश्यक व्यय परिषद निधि पर अनुचित प्रभार प्रतीत होता है। अतः विभागीय मजदूरों की उपलब्धता होते हुए भी निम्न कार्यों हेतु ₹633891/- के व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ में इस आशय के साथ लाया जाता है कि भविष्य में इस तरह के कार्यों हेतु पूर्ण जाँच पड़ताल व निति नियोजन पश्चात कार्यवाही की जाए तथा परिषद् के पास उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण दोहन पर जोर दिया जाए ताकि परिषद् निधि से अनावश्यक व्यय पर लगाम लगाकर व्यय विकासात्मक कार्यों हेतु किया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-122/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Work	Award Letter No. & Date	Awarded Amount (₹)	Name of Contractor
Clearing of Jungle various ward-3 & 5	No.MC/PWN/AWARD LETTER/2019-2152 dt. 20.08.2019	44525	Kewal Krishan
Cleaning of drain/nallah in ward no. 4,5 and 6 including clearing of jungle	No.MC/PWN/AWARD LETTER/2021-2153 dt. 27.09.2021	135826	Ankush Panta
Clearing of Jungle including removal of slips in ward no 6,7 and 8 Sector-4&5	No.MC/PWN/AWARD LETTER/2020-2305 dt. 13.11.2020	192600	Sunny
Clearing of Jungle and removal of slips in ward no. 5 & 3 sector-3&6	No.MC/PWN/AWARD LETTER/2020-2304 dt. 13.11.2020	129045	Rajeev Kumar
Clearing of Jungle and removal of slips in Sector no. 1,2 & 1A ward no. 4,1 and 9	No.MC/PWN/AWARD LETTER/2020-2324 dt. 13.11.2020	131895	Prateek Mehra
Total		₹633891/-	

25. ₹0.30 लाख की अग्रिम राशि को लम्बी अवधि के बाद भी समायोजित न किए जाने बारे।

अग्रिम राशियों से संबन्धित अभिलेख की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ₹300000/- की राशि कनिष्ठ अभियंता को अग्रिम के रूप में प्रदान की गई थी। जाँच करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि यह अग्रिम राशि लम्बी अवधि से समायोजन के लिए लम्बित थी। विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किए गए अग्रिम राशि को लम्बी अवधि तक समायोजित न करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है साथ ही इससे अग्रिम राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 के नियम 22 के अनुसार अग्रिम राशि की वसूली निर्धारित अवधि में न किए जाने के कारण उक्त राशि की वसूली सामान्य ब्याज दर (8% of Normal rate of Interest on G.P.F (Approx.))+दण्ड ब्याज (3% Penal Interest) सहित की जानी अपेक्षित थी अतः

निम्न विवरण अनुसार ₹79665/ राशि की वसूली(दण्ड ब्याज सहित) सम्बंधित कर्मचारी से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

Voucher no/Date	Cash book page no	To whom Given	Purpose	Amount given (Rs)	Period of Adjustment Advance 30.04.2022	Late of upto	Interest on delay adjustment Of Advance	Total Amount along With Interest	Remarks
69/30.04.2013	111	Sh. Rakesh Kant Junior Engineer.	Petty Advance for Different Expenditure	30000	9 years		49665	79665	Comound Interest @11% (8 %of Normal rate of Interest of G.P.F (Approx.) and @3% Penal Interest)

26. नगर परिषद निधि से राशि ₹15.62 लाख के अनियमित व्यय बारे:-

अंकेक्षण के दौरान वाहन लॉग बुक की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद के अपने वाहन स. 65B 3535 का प्रयोग अधिकतर समय जिलाधीश महोदय आदेशानुसार, VIP Duty व Election Duty हेतु किया जाता रहा है, किन्तु इससे सम्बंधित व्यय नगर परिषद की अपनी निधि से ही किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना स. आर - 91/22 दिनांक- 30.04.2022 द्वारा अंकेक्षण अवधि में उक्त VIP Duty व Election Duty हेतु परिषद् के वाहन हेतु किए कुल व्यय की सूचना मांगी गई, जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र स. MC/PWN/2022-1342 दिनांक- 06.06.2022 द्वारा इस सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई सूचना अनुसार, अंकेक्षण अवधि 2019-22 के दौरान कुल 77721km गाड़ी का प्रयोग VIP Duty व Election Duty हेतु किया गया जिस पर निम्न विवरणानुसार परिषद् निधि से ₹1562579/- औसतन व्यय किया गया वर्तमान समय में परिषद् की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस तरह का व्यय परिषद् निधि के लिए अनुचित प्रभार है, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः यह मामला सम्बंधित विभाग के ध्यानार्थ में लाया जाए व अवधि 2019-22 में गाड़ी के VIP Duty व Election Duty हेतु किये प्रयोग के कारण जो परिषद् निधि पर अनुचित प्रभार पड़ा है, उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अमल में लायी जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-123/22 दिनांक-19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया

गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Year	Total KM running during the year	Total KM where car used beyond MC Duty	Total Expenditure During the year (₹)	Total Average Irregular expenditure where car used beyond MC Duty (₹)	Remarks
2019-20	37738	25360	680556	457335	Total Irregular Expenditure calculated on the basis of – {Total expenditure during the year / Total KM running during the year} x Total KM where car used beyond MC Duty.
2020-21	35568	24027	727195	491237	
2021-22	48210	28334	1044727	614007	
Total	121516km	77721km	₹2452478	₹1562579	

27 वास्तविक डीजल खपत से अधिक डीजल खपत दर्शाकर ₹0.38 लाख का संभावित अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान वाहन संख्या-15B 3535 की लॉग बुक की पड़ताल पर पाया गया कि, वर्णित गाड़ी जिसकी कुल डीजल भराव क्षमता 60 लीटर है, की माह के अन्त में वास्तविक डीजल खपत की तुलना में अधिक डीजल खपत दर्शाई गई थी, अर्थात नगर परिषद द्वारा समय-2 पर वर्णित गाड़ी की जो औसत माईलेज निर्धारित की गई थी, उस आधार पर लॉग बुक में दर्ज रिकॉर्ड की पुष्टि पर पाया गया कि माह के अंत में गाड़ी में उपलब्ध डीजल का जो अंतिम शेष लॉग बुक में दर्शाया गया था व वास्तव में जो अंतिम शेष अंकेक्षण को जाँच पश्चात प्राप्त हुआ उसमें अंतर पाया गया, परिणामस्वरूप वर्णित गाड़ी की लॉग बुक में वास्तविक डीजल खपत की तुलना में अधिक डीजल की खपत दर्शाई गई थी, जिस कारण निम्न विवरणानुसार ₹38206.09 के डीजल का संभावित अधिक भुगतान किया प्रतीत होता है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित मामलों में जाँच पड़ताल पश्चात अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए साथ ही विभागीय स्तर पर वाहनों की लॉग बुकों

की पड़ताल करके इस तरह की अनियमितताओं का निवारण किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने सुनिश्चित किए जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-130/22 दिनांक-28.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Date of Filling of Diesel Oil in Jeep	Total Diesel Oil Filled including previous Balance as per tank capacity	Total KM of Jeep Run after filling of Diesel Oil as on end of the month	Total consumption of Diesel Oil as per Mileage	Closing Balance of Diesel Oil as per audit calculation	Closing Balance for Diesel Oil Shown on Log Book as on end of the month	Difference (Per Liter)	Rate of Diesel Oil (Per Liter)	Total excess Amount of Expenditure incurred on diesel due to wrong closing balance taken in log book	Remarks
29.04.2019	60	147	14.7	45.3	10.41	34.89	63.82	2226.68	Mileage 10 Km. Per Liter
31.05.2019	60	168	16.8	43.2	11.41	31.79	63.72	2025.66	
29.06.2019	60	390	39	21	10.41	10.59	61.45	650.76	
31.07.2019	60	310	31	29	8.41	20.59	63.21	1301.49	
28.08.2019	60	13	1.3	58.7	7.41	51.29	62.64	3212.81	
28.09.2019	60	344	34.4	25.6	4.41	21.19	64.54	1367.60	
30.11.2019	60	119	11.9	48.1	7.41	40.69	64.81	2637.12	
31.12.2019	60	320	32	28	5.41	22.59	66.68	1506.30	
31.01.2020	60	330	33	27	8.41	18.59	65.18	1211.70	
26.06.2020	60	195	21.67	38.33	29	9.33	71.04	663.04	
21.07.2020	60	202	22.44	37.56	24.00	13.56	72.16	978.17	
29.08.2020	60	72	8.00	52.00	28.00	24.00	72.45	1738.80	
29.09.2020	60	150	16.67	43.33	10.50	32.83	69.97	2297.35	
30.10.2020	60	270	30.00	30.00	24.50	5.50	69.81	383.96	
30.11.2020	60	177	19.67	40.33	34.50	5.83	71.5	417.08	
31.12.2020	60	120	13.33	46.67	38.50	8.17	72.74	594.04	
29.03.2021	60	375	41.67	18.33	14.00	4.33	79.39	344.02	
26.04.2021	60	450	50.00	10.00	7.00	3.00	79.03	237.09	
28.05.2021	60	106	11.78	48.22	9.00	39.22	82.89	3251.13	
29.06.2021	60	305	33.89	26.11	7.00	19.11	87.35	1669.36	Mileage 8 Km. Per Liter
30.09.2021	60	78	9.75	50.25	3.00	47.25	97.85	4623.41	
30.10.2021	60	220	27.50	32.50	13.00	19.50	95.74	1866.93	
30.11.2021	60	153	19.13	40.88	3.00	37.88	79.25	3001.59	
Total						521.72		₹38206.09	

28 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹69.56 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि. प्र. वित्त विभाग कि अधिसूचना संख्या Fin.(C)A(3)52004 दिनांक- 19. 07.2017 के अनुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। इन औपचारिकताओं के अनुसार ₹500000/- मूल्य के स्टॉक/स्टोर GeM. में उपलब्ध आपूर्तिकर्ता तथा ₹500000/- मूल्य से अधिक मूल्य के स्टोर व स्टॉक को GeM. विक्रताओं के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 1.4.2019 से 31.03.2022 के दौरान निम्न विवरण अनुसार ₹6956589/- का स्टोर व स्टॉक उपरोक्त नियमों की अवेहलना करके किया गया था। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के अनुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्तमान में इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कर्पोतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-123/22 दिनांक- 19.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या- MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Sr. No.	Voucher No. & Date	Amount Paid	Cash Book Page No.	Detail of Purchase Item	Agency
1	58/24.04.2019	579600	91	Purchase of LED Lights	M/s Guru Nanak Electricals
2	24/10.05.2019	59800	15	Supply of Digester	M/s Anahita Broadway Services Ner chowk Mandi
3	54/23.05.2019	695026	39	High Mask Lights	M/s Guru Nanak Electricals
4	9/10.07.2019	717433	82	High Mask Lights	M/s Guru Nanak Electricals
5	69/30.07.2019	100300	17	Purchase of Hand cart	M/s Himalya's Engineering Works Dehra

6	28/08.08.2019	402880	31	Dengue Medicine	M/s Jamwal Paste control
7	40/16-10-2019	221867	8	Dengue Medicine	M/s Jamwal Paste control
8	33/16-12-2019	108674	72	Elect. Material	M/s Guru Nanak Electricals
9	101/29-6-2020	219185	60	Purchase of Manhole Cover	M/s Ravindra RCC Products Barwala
10	69/28-8-2020	92040	15	Purchase of Tree Guard	M/s Him giri Enterprises Ind.
11	28/10-11-2020	73278	11	EPABX	Newage Enterprises Solan
12	68/27-7-2021	197434	88	Purchase of Manhole cover	M/s Ravindra RCC Products Barwala
13	39/7-10-2021	525000	71	Mini High Mast Light	M/s Guru Nanak Electricals
14	97/25-10-2021	60000	90	Purchase of Aspee Giant Fogger	M/s Sai Aqua Machines Solan Saproon.
15	31/3-11-2021	550000	11	Purchase of Garden Benches	Sh. Hardeep Singh
16	32/ 3-11-2021	550000	11	Purchase of Garden Benches	Sh. Hardeep Singh
17	74/23-11-2021	60002	24	Dengue Medicine	M/s Jamwal Paste control
18	16/4-1-2022	542570	69	LED Street Light	M/s Taran Enterprises
19	19/5-1-2022	721500	70	LED Lights	M/s Guru Nanak Electricals
20	81/29-3-2022	480000	54	Purchase of Benches	Contractor Sh. Hardeep Singh
	Total	₹6956589			

29. ₹32.39 लाख के बिजली के सामान का अनियमित क्रय:-

निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(F)- Tender-Engg-Cell -23793-847 दिनांक 07.04.2015 के अनुसार अवधि 21-03-2016 तक ₹1 लाख तथा अवधि 21-03-2016 के पश्चात ₹5 लाख अधिक के सामान क्रय हेतु E-Tendering की प्रक्रिया को अपनाया अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹3238559/- के बिजली के सामान के क्रय हेतु E-Tendering को avoid करके खरीद सम्बन्धी बिलों को ₹5.00 लाख से कम गुणकों में बाँटकर टेंडर आमंत्रित किए गए थे साथ ही टेंडर सम्बन्धी सूचना (Tender Notice) किसी प्रतिष्ठित व National News Paper में प्रकाशित नहीं की गई थी, उपरोक्त राशि के सामान का क्रय एक ही विक्रेता से किया गया, जोकि जानबूझ कर E-Tenderring को अनदेखा (avoid) करके किसी विक्रेता विशेष को अनुचित लाभ दिए जाने की स्थिति को परिलक्षित करता है, उपरोक्त के

अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि, उपरोक्त खरीदे गए सामान के उपयोग/उपभोग के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिस कारण सामान दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः E-Tendering को अनदेखा (avoid) करने हेतु सामान के खरीद सम्बन्धी बिलों को ₹5.00 लाख से कम गुणकों में बाँटकर टेंडर आमंत्रित करना एक ही विक्रेता को अनुचित लाभ दिए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ में इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामलों में विभागीय स्तर पर पड़ताल करके सामान क्रय सम्बन्धी टेंडर प्रक्रिया की पुष्टि की जाए तथा यह सुनिश्चित किया गया कि जो टेंडर दिए गये वो नियमों के दृष्टिगत उचित भी थे या नहीं इसके अतिरिक्त इसकी भी जाँच की जाए कि क्या वास्तव में उक्त क्रय किये गये सामान का उचित प्रयोग व उपभोग किया भी गया या नहीं तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत काव्य जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-135/22 दिनांक-02.08.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-2003 दिनांक-02.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Article Purchased	Purchasing Agency	Voucher No. & Date & Amount	Bill No. & Date & Amount	Remarks
Purchase of LED Lights	M/s Guru Nanak Electricals	58/24.04.2019 Rs. 579600/-	Bill No. 000416, Dt.25.03.2019, Rs.313600/- Bill No. 000419, Dt. 27.03.2019, Rs. 266000/-	Spilt of Tender
High Mask Lights	M/s Guru Nanak Electricals	54/23.05.2019 Rs. 695026/-	Bill No. 000411 Dt. 16.03.2019 Rs. 173365/- Bill No. 000412 Dt. 18.03.2019 Rs. 173986/- Bill No. 000413 Dt. 20.03.2019 Rs. 174815/- Bill No. 000414 Dt. 22.03.2019 Rs. 172950/-	Spilt of Tender
High Mask Lights	M/s Guru Nanak Electricals	9/10.07.2019 Rs. 717433/-	Bill No. 000410 Dt. 12.03.2019 Rs. 174401/- Bill No. 000415 Dt. 23.03.2019 Rs. 172536/- Bill No. 000418 Dt. 26.03.2019 Rs. 4256/- Bill No. 000420 Dt. 27.03.2019 Rs. 366240/-	Spilt of Tender
Mini High Mask Lights	M/s Guru Nanak Electricals	39/04.10.2021 Rs. 525000/-	Bill No. 000659 Dt. 22.09.2021 Rs. 525000/-	
LED Lights	M/s Guru Nanak Electricals	19/05.01.2022 Rs. 721500/-	Bill No. 000668 Dt.23.12.2021 Rs. 721500/-	

Total	₹3238559/-		
-------	------------	--	--

30 ₹0.49 लाख के स्टॉक/स्टोर के संभावित दुरुूपयोग बारे:-

अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक- 11.12.2018 को श्री सुधीर कुमार शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को कार्यालय उपयोग हेतु 1 Nos Laptop जारी किया गया था, जिसकी खरीद बिल संख्या (Invoice No.- SHIVA\18-19\296) द्वारा दिनांक 01.12.2018 को कुल राशि ₹49499/- (Including GST) के भुगतान करके की गई थी वर्णित अधिकारी दिनांक 30.04.2020 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, किन्तु इनको जारी 1 Nos Laptop को स्टॉक में वापिस नहीं लिया गया और न ही परिषद द्वारा इस हेतु कोई विशेष प्रयास किए गए जोकि परिषद की लचर कार्यप्रणाली को परिलक्षित करता है, परिषद निधि से ₹49499/- का भुगतान करके खरीदे 1 Nos Laptop जिसको वर्णित अधिकारी को कार्यालय उपयोग हेतु जारी किया गया था, को पद से सेवानिवृत्ति पश्चात भी स्टॉक में वापिस न लेना व इस हेतु परिषद द्वारा कोई विशेष प्रयास न करना जहाँ एक ओर परिषद् की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह प्रदर्शित करता है वहीं यह जारी स्टॉक/स्टोर के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अधिकारी से सेवानिवृत्ति पश्चात भी 1 Nos Laptop की प्राप्ति न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही वर्णित वस्तु की प्राप्ति हेतु विशेष कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व विभागीय स्तर पर इस तरह के अन्य मामलों की पड़ताल करके स्टॉक/स्टॉक के हो रहे दुर्विनियोजन के मामलों पर लगाम लगाई जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-130/22 दिनांक-28.07.2022 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु ने पत्र संख्या-MC/PWN/2022-1978 दिनांक-05.08.2022 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Name of Item	Date of Purchase & Bill No. & Amount (₹)	Date of Issue of Item & Stock Register page No.	To whom issued	Present Status

Lenovo Laptop 15/8gbram/1tb Hdd/dvd	01.12.2018 & SHIVA\18-19\296N & ₹49499/-	11.12.2018 & Page No. 8	Sh. Sudhir Kumar Sharma (Executive Officer)	Sh. Sudhir Kumar Sharma (Executive Officer) has been retired from his job on dt.30.04.2022 but the item issued to him is not received till date.
-------------------------------------	--	-------------------------	---	--

31. स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न किया जाना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से किया जायेगा साथ ही प्रत्यक्ष सत्यापन और किताबी अभिलेख में अंतर पाये जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। स्टॉक/स्टोर के प्रत्यक्ष सत्यापन के संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु द्वारा मौखिक तौर से सूचित किया गया कि अवधि 04/2019 से 03/2022 के दौरान नगर परिषद के स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसे नियमों अनुसार शीघ्र अति शीघ्र किया जायेगा। अतः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) के अनुसार स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्तमान में स्टॉक/स्टोर का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32. लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अकेंक्षण के दौरान कर लिया गया।

33. निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की अति आवश्यकता हैं। इसके साथ ही अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव भी दिया जाता हैं की नगर परिषद परवाणु की आय को बढ़ाने के लिए कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु को विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

हस्ता/-

(अनिल शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या :- सी(15)(5)66/76 खण्ड-8-6370-6371, दिनांक: 29.10.2022 शिमला-171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत :
- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या:1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणु तहसील कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/-

(अनिल शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881

(परिशिष्ट-क)

अंकेक्षण पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा-9 (i) से (iii)	अनिर्णीत	
2	पैरा-15	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90			
1	पैरा-13	अनिर्णीत	
2	पैरा-15	अनिर्णीत	
3	पैरा-22	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹335/- की वसूली रसीद संख्या-12/514 दिनांक-28.07.2022 द्वारा करने पश्चात
4	पैरा-29	अनिर्णीत	
(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/95			
1	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा-5 (क)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण व कार्यवाही पश्चात
3	पैरा-5 (ख)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण व कार्यवाही पश्चात
4	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा-7 (3)	अनिर्णीत	
6	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा-9 (1)	अनिर्णीत	
8	पैरा-9 (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा-10 (ग)	आंशिक अनिर्णीत	(₹19500 की वसूली शेष है)

10	पैरा-15 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा-15 (ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा-15 (छ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹1296/- की वसूली रसीद संख्या-13/514 दिनांक-28.07.2022 द्वारा करने पश्चात
13	पैरा-16 (7)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
14	पैरा-16 (8)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
15	पैरा-16 (10)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
16	पैरा-17 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
17	पैरा-17 (3)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
18	पैरा-18 (6)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹10706/- की वसूली रसीद संख्या-95/421 दिनांक-24.03.2017 द्वारा करने पश्चात
19	पैरा-18 (7) (3) से (13)	अनिर्णीत	
20	पैरा-19 (1, 2)	अनिर्णीत	
21	पैरा-19 (3) (i) (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा-19 (4)	अनिर्णीत	

23	पैरा-19 (5, 6)	अनिर्णीत	
24	पैरा-19 (7) (1) (ख) (ग)	अनिर्णीत	
25	पैरा-19 (7) (2, 3, 4, 5, 6)	अनिर्णीत	
26	पैरा-19 (8)(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत	
27	पैरा-19 (9)	अनिर्णीत	
28	पैरा-20 (6, 7)	अनिर्णीत	
29	पैरा-22 (1)	निर्णीत	पैर मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले से ही निर्णीत है
30	पैरा-22 (1) (क, ख, घ, ङ, च, छ, ज, झ) (1, 2, 3)	अनिर्णीत	
31	पैरा-24 (1 से 7)	अनिर्णीत	
32	पैरा-24 (12) और (13)	अनिर्णीत	
33	पैरा-25 (2) (i)(ii)(iii) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत	
34	पैरा-25 (2) (iv)	अनिर्णीत	
35	पैरा-25 (3) (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
36	पैरा-25 (3) (i)(ii)	अनिर्णीत	
37	पैरा-25 (5)	अनिर्णीत	

38	पैरा-25 (6)	अनिर्णीत	
39	पैरा-26	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
40	पैरा-27 (1) (ग)	अनिर्णीत	
41	पैरा-27 (1) (घ)	अनिर्णीत	
42	पैरा-27 (5) (क)	अनिर्णीत	
43	पैरा-27 (5) (ख)	अनिर्णीत	
44	पैरा-28 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
45	पैरा-28 (2)	अनिर्णीत	
46	पैरा-28 (3)	अनिर्णीत	
47	पैरा-28 (5)	अनिर्णीत	
48	पैरा-28 (6)	अनिर्णीत	
49	पैरा-28 (7)	अनिर्णीत	
(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/98			
1	पैरा-9 (ग)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक कार्यवाही व अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध करने पश्चात

2	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा-10 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा-14 (क) (2)	आंशिक निर्णीत	(₹1012 को वसूली शेष है)
6	पैरा-14 (क) (3) (4)	अनिर्णीत	
7	पैरा-15 (ख) (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) पैरा मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले से ही निर्णीत है
8	पैरा-15 (ख) (2)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) पैरा मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले से ही निर्णीत है
9	पैरा-24 (ख) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	अनिर्णीत	
10	पैरा-24 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा-24 (घ) (i)(iii)	अनिर्णीत	
12	पैरा-24 (ङ)(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	अनिर्णीत	
13	पैरा-24 (च) (ii)	अनिर्णीत	
14	पैरा-24 (ज) (झ) (ञ)	अनिर्णीत	
15	पैरा-24 (ड)	अनिर्णीत	
16	पैरा-25 (ii)	निर्णीत	पैरा मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले से ही निर्णीत है
17	पैरा-28 (क)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
18	पैरा-29 (घ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
19	पैरा-30 (क) (1, 2)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

20	पैरा-30 (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा-30 (ङ, च, छ, ज, झ, ज्ञ)	अनिर्णीत	
22	पैरा-31 (क, ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा-34 (ए) (ii)	अनिर्णीत	
24	पैरा-34 (बी) (ii)	अनिर्णीत	
25	पैरा-34 (ई)	अनिर्णीत	
26	पैरा-34 (आर)	अनिर्णीत	
27	पैरा-34 (वी)	अनिर्णीत	
28	पैरा-34 (एक्स)	अनिर्णीत	
29	पैरा-34 (ए ए से बी बी, डी डी)	अनिर्णीत	
30	पैरा-34 (जी आई से जे जे)	अनिर्णीत	
31	पैरा-34 (एम एम)	अनिर्णीत	
32	पैरा-34 (पी पी)	अनिर्णीत	
33	पैरा-34 (आर आर)	अनिर्णीत	
(ङ) अंकेक्षण प्रतिवदन अवधि 4/98 से 3/2005			
1	पैरा-5 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
2	पैरा-5 (2)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
3	पैरा-5 (3)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
5	पैरा-6 (3)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
7	पैरा-7 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान

21	पैरा-9 (8)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
22	पैरा-9 (9)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
23	पैरा-10 (3)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
24	पैरा-10 (4)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
25	पैरा-10 (5)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
26	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा-11 (ग) 1 से 3	अनिर्णीत	
29	पैरा-11 (घ)	अनिर्णीत	
30	पैरा-12 (1)	अनिर्णीत	
31	पैरा-12 (2)	अनिर्णीत	
32	पैरा-12 (3)	अनिर्णीत	
33	पैरा-12 (4)	अनिर्णीत	
34	पैरा-12 (5)	अनिर्णीत	
35	पैरा-13 (4)	अनिर्णीत	
36	पैरा-13 (5)	अनिर्णीत	
37	पैरा-14 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
38	पैरा-14 (2)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
39	पैरा-14 (3)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

40	पैरा-15 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
41	पैरा-15 (2)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
42	पैरा-16 (2)	अनिर्णीत	
43	पैरा-16 (5)	अनिर्णीत	
44	पैरा-17 (1)	अनिर्णीत	
45	पैरा-17 (2) (क)	अनिर्णीत	
46	पैरा-17 (2) (ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा-18 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
48	पैरा-18 (2)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
49	पैरा-21	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
50	पैरा-22	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹1266/- की वसूली G8 संख्या-17/514 दिनांक-28.07.2022 द्वारा करने पश्चात
51	पैरा-23 (ख)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
52	पैरा-23 (ग) (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
53	पैरा-23 (ग) (2)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
54	पैरा-23 (ग) (3)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

55	पैरा-23 (ग) (4 (1))	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
56	पैरा-23 (ग) (4 (2))	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
57	पैरा-25 (क) (1)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
58	पैरा-25 (क) (2)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹1060/- की वसूली रसीद संख्या-18/514 दिनांक-28.07.2022 द्वारा करने पश्चात
59	पैरा-25 (ख) (1)	अनिर्णीत	
60	पैरा-25 (ख) (2)	अनिर्णीत	
61	पैरा-25 (ख) (3)	अनिर्णीत	
62	पैरा-27 (1) (क)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक कार्यवाही व स्पष्टीकरण पश्चात
63	पैरा-27 (2) (ग)	अनिर्णीत	
64	पैरा-27 (3) (क)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
65	पैरा-27 (3) (ख)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
66	पैरा-27 (3) (ड)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
67	पैरा-27 (4) (घ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान

			निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
68	पैरा-27 (5) (क)	अनिर्णीत	
69	पैरा-27 (5) (ख)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
70	पैरा-27 (5) (ग)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
71	पैरा-27 (5) (घ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
72	पैरा-27 (5) (ङ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
73	पैरा-27 (6)	अनिर्णीत	
74	पैरा-27 (8) (क)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹172/- की वसूली रसीद संख्या-19/514 दिनांक-28.07.2022 द्वारा करने पश्चात
75	पैरा-27 (8) (ख)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
76	पैरा-27 (8) (ग)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
77	पैरा-27 (8) (घ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
78	पैरा-27 (9) (क)	अनिर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹899/- की वसूली रसीद संख्या-20/514 दिनांक-28.07.2022 द्वारा करने पश्चात
79	पैरा-27 (10) (क)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

80	पैरा-27 (10) (ख)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
81	पैरा-27 (10) (ग)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹2671/- की वसूली रसीद संख्या-21/514 दिनांक-28.07.2022 द्वारा करने पश्चात
82	पैरा-27 (10) (घ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
83	पैरा-27 (10) (ङ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
84	पैरा-27 (10) (च)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
85	पैरा-27 (11) (क)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
86	पैरा-27 (11) (ख)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
87	पैरा-27 (11) (ग)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) ₹193/- की वसूली रसीद संख्या-22/514 दिनांक-28.07.2022 द्वारा करने पश्चात
88	पैरा-27 (11) (घ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
89	पैरा-27 (11) (ङ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
90	पैरा-27 (12) (क)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
91	पैरा-27 (12) (ख)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

			निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
92	पैरा-27 (12) (ग)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
93	पैरा-27 (12) (घ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
94	पैरा-27 (13)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
95	पैरा-28 (1)	अनिर्णीत	
96	पैरा-28 (2)	अनिर्णीत	
97	पैरा-28 (3)	अनिर्णीत	
98	पैरा-28 (4)	अनिर्णीत	
99	पैरा-28 (5) (क)	अनिर्णीत	
100	पैरा-28 (5) (ख)	अनिर्णीत	
101	पैरा-28 (5) (ग)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
102	पैरा-28 (5) (घ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
103	पैरा-28 (5) (ङ)	निर्णीत	(उप निदेशक-1 द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्णीत) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
104	पैरा-28 (5) (च)	अनिर्णीत	
105	पैरा-28 (6)	अनिर्णीत	
106	पैरा-28 (7)	अनिर्णीत	
107	पैरा-28 (8) (1)	अनिर्णीत	
108	पैरा-28 (8) (2)	अनिर्णीत	
109	पैरा-28 (9)	अनिर्णीत	
110	पैरा-28 (10)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा-4 (x)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
2	पैरा-4 (xi)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
3	पैरा-4 (xiii)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
4	पैरा-4 (xiv)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
5	पैरा-4 (xvi)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
6	पैरा-4 (xviii)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
7	पैरा-4 (xx)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
8	पैरा-4 (xxi)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
9	पैरा-4 (vii)	अनिर्णीत	
10	पैरा-6	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
11	पैरा-6 (i) (क)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
12	पैरा-6 (i) (ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
13	पैरा-7 (i) (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा-7 (i) (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा-7 (i) (घ)	अनिर्णीत	
16	पैरा-7 (i) (छ)	अनिर्णीत	
17	पैरा-7 (i) (ज)	अनिर्णीत	
18	पैरा-7 (ii)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
19	पैरा-7 (vi)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
20	पैरा-7 (vii)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
21	पैरा-7 (viii) (क)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

22	पैरा-7 (viii) (ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
23	पैरा-8 (i)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
24	पैरा-8 (iii)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
25	पैरा-9 (ii)	अनिर्णीत	
(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009			
1	पैरा-6 (घ)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
2	पैरा-9 (क) (1)	अनिर्णीत	
3	पैरा-9 (क) (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा-9 (ग) (1)	अनिर्णीत	
6	पैरा-9 (ग) (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा-9 (ग) (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा-9 (छ)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
9	पैरा-9 (ज)	अनिर्णीत	
10	पैरा-9 (ठ)	अनिर्णीत	
11	पैरा-9 (ड)	अनिर्णीत	
12	पैरा-9 (ढ)	अनिर्णीत	
13	पैरा-9 (त)	अनिर्णीत	
14	पैरा-10 (क)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
15	पैरा-11 (क) व (ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011			
1	पैरा-7.2	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

2	पैरा-9	अनिर्णीत	
3	पैरा-10	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
4	पैरा-12.1	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
5	पैरा-13	अनिर्णीत	
6	पैरा-17	अनिर्णीत	
7	पैरा-17.1	अनिर्णीत	
8	पैरा-23	अनिर्णीत	
9	पैरा-26	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
10	पैरा-26.1	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
11	पैरा-26.2	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
12	पैरा-26.3	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
13	पैरा-27	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
14	पैरा-27.1	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
15	पैरा-27.2	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013			
1	पैरा-8.6	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
2	पैरा-8.7	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
3	पैरा-8.10	अनिर्णीत	
4	पैरा-10.4	अनिर्णीत	
5	पैरा-10.8 (i)	निर्णीत	₹7331/- की वसूली माप पुस्तिका संख्या- 78 पृष्ठ 33 द्वारा करने पश्चात
6	पैरा-10.9	अनिर्णीत	
7	पैरा-13 (क)	अनिर्णीत	
(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015			
1	पैरा-5 (ii) से (v)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

2	पैरा-8 (1)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
3	पैरा-15	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
4	पैरा-19	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
5	पैरा-20	अनिर्णीत	
6	पैरा-21	अनिर्णीत	
7	पैरा-22 (2) (iii)	अनिर्णीत	
8	पैरा-22 (3)	अनिर्णीत	
9	पैरा-22 (4)	अनिर्णीत	
10	पैरा-22 (5) (i)	अनिर्णीत	
11	पैरा-22 (5) (ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा-22 (5) (iii)	अनिर्णीत	
13	पैरा-23	अनिर्णीत	
14	पैरा-24	अनिर्णीत	
15	पैरा-24 (1)	अनिर्णीत	
16	पैरा-24 (2)	अनिर्णीत	
17	पैरा-25	अनिर्णीत	
18	पैरा-30 (ii) (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा-30 (2) (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा-31 (1) व (2)	अनिर्णीत	
21	पैरा-32 (क) व (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा-34	अनिर्णीत	
23	पैरा-36	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा-9.1	अनिर्णीत	
2	पैरा-9.4	अनिर्णीत	
3	पैरा-10.2	अनिर्णीत	
4	पैरा-12.1	अनिर्णीत	
5	पैरा-12.2	अनिर्णीत	₹6666/- की वसूली माप पुस्तिका संख्या - 111 पृष्ठ संख्या 38 पर करने पश्चात्
6	पैरा-12.4	अनिर्णीत	
7	पैरा-12.5	अनिर्णीत	
8	पैरा-12.7	निर्णीत	₹11530 की वसूली माप पुस्तिका संख्या 98 पृष्ठ संख्या 19 द्वारा करने पश्चात्
9	पैरा-12.8	निर्णीत	₹10965 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 18-19 द्वारा करने पश्चात्
10	पैरा-12.9	निर्णीत	₹2672 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 18-19 द्वारा करने पश्चात्
11	पैरा-12.10	निर्णीत	₹2315 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 18-19 द्वारा करने पश्चात्
12	पैरा-12.12	निर्णीत	₹3910 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 18-19 द्वारा करने पश्चात्
13	पैरा-12.13	निर्णीत	₹4998 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 18-19 द्वारा करने पश्चात्
14	पैरा-12.14	अनिर्णीत	
15	पैरा-12.15	अनिर्णीत	
16	पैरा-12.17	निर्णीत	₹7862 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या

			36 द्वारा करने पश्चात
17	पैरा-12.20	निर्णीत	₹2529 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 18-19 द्वारा करने पश्चात
18	पैरा-12.21	अनिर्णीत	
19	पैरा-12.22	अनिर्णीत	
20	पैरा-12.23	अनिर्णीत	
21	पैरा-12.24	निर्णीत	(क) ₹2352 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 36 (ख) आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
22	पैरा-12.25	निर्णीत	(क) ₹1758 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 36 द्वारा करने पश्चात (ख) ₹15758 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 36 द्वारा करने पश्चात
23	पैरा-12.26	निर्णीत	₹83893 की वसूली माप पुस्तिका 98 पृष्ठ संख्या 18-19 व माप पुस्तिका संख्या 91 पृष्ठ संख्या 24 द्वारा करने पश्चात
24	पैरा-12.27	निर्णीत	₹2.00 लाख की वसूली माप पुस्तिका संख्या 96 पृष्ठ संख्या 59 वाउचर संख्या 46 दिनांक 16.10.2018 & ₹3 लाख की वसूली माप पुस्तिका संख्या 103 पृष्ठ संख्या 59 वाउचर संख्या 52A दिनांक 17.08.2019 द्वारा करने पश्चात
25	पैरा-12.28	अनिर्णीत	
26	पैरा-12.29	अनिर्णीत	

27	पैरा-12.30	अनिर्णीत	
28	पैरा-12.31	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2017 से 3/2019

1	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति पश्चात
2	पैरा-4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
3	पैरा-5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
4	पैरा-6 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
5	पैरा-6 (ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
6	पैरा-7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
7	पैरा-8.1	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
8	पैरा-8.2	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
9	पैरा-8.3 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
10	पैरा-8.3 (ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
11	पैरा-8.3 (ग)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
12	पैरा-8.3 (घ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
13	पैरा-8.3 (ङ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
14	पैरा-8.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
15	पैरा-8.5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
16	पैरा-8.6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
17	पैरा-8.7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
18	पैरा-8.8 (i)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
19	पैरा-8.8 (ii)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
20	पैरा-8.9	निर्णीत	₹4481/- की वसूली रसीद संख्या 40/486 दिनांक 04.09.2020 और ₹19895/- की वसूली रसीद संख्या 65/485 दिनांक

			14.08.2020 द्वारा करने पश्चात करने
21	पैरा-8.10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
22	पैरा-9 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
23	पैरा-9 (ख)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
24	पैरा-9.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
25	पैरा-9.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
26	पैरा-9.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
27	पैरा-10 (क)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
28	पैरा-10 (ख)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
29	पैरा-11	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
30	पैरा-12	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
31	पैरा-13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित
32	पैरा-14 (1)	निर्णीत	₹33264 की वसूली माप पुस्तिका 103 संख्या 90 व माप पुस्तिका संख्या 111 पृष्ठ संख्या 38, माप पुस्तिका संख्या 93 पृष्ठ संख्या 72 तथा रसीद संख्या - 17/487 दिनांक 23.09.2020 द्वारा करने पश्चात
33	पैरा-14 (2)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
34	पैरा-14 (3)	निर्णीत	₹14264 की वसूली रसीद संख्या - 21/487 दिनांक 23.09.2020 द्वारा करने पश्चात
35	पैरा-14 (4)	निर्णीत	₹4680 की वसूली माप पुस्तिका 91 संख्या 44 द्वारा करने पश्चात्
36	पैरा-14 (5)	निर्णीत	₹24492 की वसूली माप पुस्तिका 108 संख्या 3 द्वारा करने पश्चात्
37	पैरा-14.6 (क)	निर्णीत	₹1190 की वसूली माप पुस्तिका 103 संख्या 97 द्वारा करने पश्चात्

38	पैरा-14.6 (ख)	अनिर्णीत	
39	पैरा-14.6 (ग)	निर्णीत	₹7140 की वसूली माप पुस्तिका 103 संख्या 94 द्वारा करने पश्चात्
40	पैरा-14.7 (क)	अनिर्णीत	
41	पैरा-14.7 (ख)	अनिर्णीत	
42	पैरा-14.8	अनिर्णीत	
43	पैरा-14.9	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात्
44	पैरा-14.10	निर्णीत	₹6324 की वसूली माप पुस्तिका 107 संख्या 58 द्वारा करने पश्चात्
45	पैरा-14.11	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात्
46	पैरा-15	अनिर्णीत	
47	पैरा-16	अनिर्णीत	
48	पैरा-17	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात्
49	पैरा-18	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात्
50	पैरा-19	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात् व कार्यवाही पश्चात्
51	पैरा-20	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात्
52	पैरा-21	अनिर्णीत	
53	पैरा-22	अनिर्णीत	
54	पैरा-23	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात्
55	पैरा-24	अनिर्णीत	

56	पैरा-25	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
----	---------	---------	--------------------------

अनिर्णीत पैरों का सार	
दिनांक 01.04.19 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	331
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	29
कुल	360
(-) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	193
दिनांक 31.03.22 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	167